

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार, 2 अप्रैल 2021 वर्ष-8, अंक-66 पृष्ठ-06 मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com

www.facebook.com/krantisamay1

www.twitter.com/krantisamay1

**अबकी दिल्ली-हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी**

नई दिल्ली। गर्मी दस्तक दे चुकी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले तीन महीनों के दौरान गर्मी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली-हरियाणा में पड़ेगी। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 0.62 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वैसे जम्मू-कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग 2016 के बाद से लगातार गर्मियों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। बुधवार को अगले तीन महीनों अप्रैल-जून के लिए जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। यहां अधिकतम तापमान 0.62 डिग्री अधिक हो सकता है। पंजाब में गर्मियों में अधिकतम तापमान 0.56 डिग्री, पश्चिमी राजस्थान में 0.50 डिग्री पूर्वी राजस्थान में 0.37, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 0.43, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 0.19, उत्तराखंड में 0.31 तथा हिमाचल प्रदेश में 0.27 डिग्री तापमान अधिक रहेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि दिल्ली-हरियाणा-चंडीगढ़ संभाग तथा पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना 100 फीसदी है। मौसम वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि कहते हैं कि यदि अधिकतम औसत तापमान में आधे डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव लोगों को स्पष्ट महसूस होता है। 0.62 डिग्री की बढ़ोतरी का महत्व फिक्ताना है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि आज वैश्विक तापमान में करीब एक डिग्री की औसत बढ़ोतरी से हाहकार मचा हुआ है। इसी प्रकार झारखंड में अधिकतम तापमान 0.27, ओडिशा में 0.35 तथा बिहार में 0.13 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है।

## कोरोना की नई लहर हुई विकराल, 24 घंटे में 72,330 नए केस, 459 लोगों की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। यही नहीं मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 459 पर पहुंच गया है। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,22,21,665 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,14,74,683 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल देशभर में 5,84,055 एक्टिव केस हैं। इस तरह से देखें तो एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बीच वैक्सिनेशन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की टीका लगाया जा चुका है।



बीते करीब छह महीनों में कोरोना का यह बड़ा आंकड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंच गया है और यह चिंता की वजह है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,927 पर पहुंच गई है। पिछले कुछ सप्ताह से देश भर में कोरोना

केसों में लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। देश भर में 24 घंटों में मिले 72 हजार केसों में से 39 हजार से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में ही दर्ज किए गए हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू से लेकर अन्य तमाम पाबंदियों को लागू किए जाने के बाद भी हालात में सुधार न होना चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अकेले 39 हजार से ज्यादा केस, 227 लोगों की मौत

बीते करीब छह महीनों में कोरोना का यह बड़ा आंकड़ा है। 10 अक्टूबर के बाद से केसों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंच गया है और यह चिंता की वजह है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,927 पर पहुंच गई है। पिछले कुछ सप्ताह से देश भर में कोरोना केसों में लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

**दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुला, ढाई घंटे का सफर अब 45 मिनट में होगा पूरा**

नई दिल्ली। दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब से आसान होगा। आज दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया है। अब दिल्ली से मेरठ का सफर ढाई घंटे से घटकर 45 मिनट का हो गया है। गुरुवार को सुबह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टि्वट कर यह जानकारी दी। नितिन गडकरी ने एक वीडियो टि्वट करते हुए कहा, 'दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। हमने दिल्ली-मेरठ के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटाकर 45 मिनट करने का अपना वादा पूरा किया है।' आपको बता दें कि अभी तक सहारनपुर देहरादून उत्तराखंड जाने के लिए मोदी नगर, मुगदनगर जैसे जाम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। जिसमें काफी टाइम लगता था।

100 की गति से दौड़ेगी कार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 की गति से कार दौड़ेगी जबकि 80 की रफ्तार से अन्य वाहन चलेंगे। परियोजना निदेशक ने बताया कि एक्सप्रेसवे का डिजाइन 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने का है। लेकिन खंड चार पर कार 100 की रफ्तार से चलेंगी, क्योंकि खंड-2 और खंड-3 डसना से हापुड़ के बीच रफ्तार 100 और 80 है। रफ्तार को लेकर वाहन चालक दुविधा में न रहे इसलिए खंड चार में भी रफ्तार 100 और 80 रखी है। खंड-एक दिल्ली में वाहनों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन एक सप्ताह टोल दिए बिना निकलेंगे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे बेशक बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन अभी किसी भी खंड पर टोल प्लाजा नहीं बने हैं। केवल बृथ ही तैयार हो सके हैं। उनमें कंप्यूटर लगाने और बिजली कनेक्शन का काम चल रहा है। टोल शुरू होने में पांच से सात दिन का समय लगेगा।

## 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को लगनी शुरू हुई वैक्सीन

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच टीकाकरण अभियान को भी तेज कर दिया गया है। आज यानी एक अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। अभी तक 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें ही टीका लगाया जा रहा था। मगर आज यानी 1 अप्रैल से अब 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने जल्द से जल्द बड़ी आबादी का टीकाकरण करने के उद्देश्य से हाल ही में यह कदम उठाया है। अब कोई भी शख्स जिसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, वह वैक्सीन की डोज लगवा सकेगा। वैक्सिनेशन के लिए लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अस्पताल में भी जाकर टीका लगवा सकते हैं।

कैसे लगवा सकते हैं कोरोना टीका? जिन लोगों की उम्र 45 साल से अधिक है, वे दो तरीके से वैक्सिनेशन अभियान में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन दोनों तरीकों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कोविन की वेबसाइट <http://cowin.gov.in> के जरिए से एडवांस में अर्वाइस्टमेंट ली जा सकती है। हालांकि, अगर आप एडवांस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं तो फिर आपको दोपहर तीन बजे के बाद अपने नजदीकी अस्पताल जहां पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, वहां जाना होगा। आप वहां पर भी कोविड-19 की वैक्सीन की डोज लगवा सकेंगे। मालूम हो कि देश में दो तरीके के कोरोना टीका लगाए जा रहे हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड है और दूसरा भारत बायोटेक की देसी कोवैक्सीन है।

## छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी दरों से मिलेगा ब्याज

**वित्त मंत्री ने दिया कटौती वापस लेने का निर्देश**

नई दिल्ली। सरकार ने जो कल छोटी बचतों पर ब्याज दरें घटाई थी उसे आज वापिस ले लिया है। अब सभी छोटी बचतों पर पुरानी यानी 2020-21 की दरें लागू होंगी। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती करके आम लोगों को बड़ा झटका दिया था। सरकार ने बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। कहा गया था कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, आज सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है। इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टि्वट कर बताया कि 2020-21 की बीती तिमाही में जो दरें थी, वहीं दरें अब लागू होंगी। जो ऑर्डर कल पास किये गये थे, उन्हें बदल दिया गया है।

कल घटा दी थी ब्याज दरें-बचत खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज को 4 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) पर अब तक 7.1 फीसदी वार्षिक ब्याज को घटाकर 6.4 फीसदी कर दिया था। एक साल के लिए जमा राशि पर तिमाही ब्याज दर को 5.5 फीसदी से घटाकर 4.4 फीसदी किया गया था। बुजुर्गों को बचत योजनाओं पर अब 7.4 फीसदी की जगह केवल 6.5 फीसदी तिमाही

ब्याज देने की घोषणा की गई थी। ये नई दरें लागू की गई थी, अब पुरानी दरों पर ही ब्याज मिलेगा-एक साल के लिए टर्म डिपॉजिट पर 5.5 फीसदी की जगह 4.4 फीसदी ब्याज, 2 साल के लिए जमा राशि पर अब 5.5 फीसदी की जगह 5 फीसदी, 3 साल के लिए जमा राशि पर 5.5 फीसदी की जगह 5.1 फीसदी, 5 साल के लिए जमा राशि पर 6.7 फीसदी की जगह 5.8 फीसदी ब्याज कर दिया गया था। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 6.8 फीसदी की बजाय केवल 5.9 फीसदी ब्याज, किसान विकास पत्र पर 6.9 फीसदी की जगह 6.4 फीसदी ब्याज और सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर को 7.6 फीसदी से घटाकर 6.9 फीसदी कर दिया गया था। अब पुरानी दरें जो 31 मार्च 2021 को थी, वहीं मानी जाएंगी।

## 5 अप्रैल से चलेंगी 17 पैसेंजर ट्रेन

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली-अलग-अलग स्टेशनों से पांच अप्रैल से 17 पैसेंजर ट्रेन चलने जा रही हैं। इनमें सफर करने के लिए लोगों को अपने जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन सभी को रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस बनाकर चलाने का निर्णय लिया है। पहले जिस दूरी के पैसेंजर ट्रेन में सफर करने में 10 रुपये लागते थे, उसी दूरी के लिए इन रेलगाड़ियों में करीब 30 रुपये किराया लगेगा। उत्तर रेलवे को 10 अप्रैल तक 90 फीसदी रेलगाड़ियां पटरी पर उतारनी हैं। इसी के मद्देनजर लगातार स्पेशल और मेल



एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं। इससे पूर्व दिल्ली से छह पैसेंजर ट्रेन मेल-एक्सप्रेस बनाकर चलाई गई थीं। अब चलाई जाने वाली ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, गाजियाबाद, रेवाड़ी, पलवल, सहारनपुर, अंबाला, शामली

आदि रूट पर होंगी। इससे दिल्ली-एनसीआर में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। कोरोना पूर्व दिल्ली-एनसीआर में 150 से अधिक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी।

## अब घर बैठे ले सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं का लाभ

नई दिल्ली। दिल्लीवासियों के लिए परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं को लेकर अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ अब लोग घर बैठे ले सकेंगे। विभाग ने डीएल नवीकरण से लेकर उसमें नाम परिवर्तित कराने, पते में बदलाव सहित नौ सेवाओं की फेसलेस सुविधा की शुरुआत कर दी है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्र नहीं लगाने होंगे। लोग घर बैठे ही सुविधा के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। डीएल से जुड़ी इन सेवाओं को किया फेसलेस फेसलेस सुविधा के तहत डीएल का प्रतिरूप जारी कराने, डीएल के पते में बदलाव कराने, चालक को पीएस्वी बैज जारी करने, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने, कंडक्टर लाइसेंस जारी करने, डीएल का नवीकरण, डीएल में नाम बदलाने, डीएल बदलवाने और डीएल निकलवाने की सुविधा को ऑनलाइन शुरू कर

दिया गया है। इस सुविधा का लाभ आवेदक सारथी परिवहन की वेबसाइट पर जाकर ले सकेंगे। वाहनों को लेकर हुई यह सुविधा है ऑनलाइन इससे पहले विभाग ने वाहनों के दस्तावेज से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन किया था। इसमें वाहन के मालिकाना हक का हस्तांतरण, वाहन के पंजीकृत प्रमाण पत्र में बदलाव या प्रतिरूप जारी कराने, परमिट नवीकरण, नया परमिट बनवाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने सहित कई दूसरी सुविधाओं को शुरू किया था, जिसके लिए आवेदक को परिवहन दफ्तर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से शुरुआत-परिवहन विभाग के अनुसार इन सुविधाओं के लिए आवेदक को किसी प्रकार की अप्वाइंटमेंट और दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग आरटीओ में लोगों की भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवहन से जुड़ी

सेवाओं को फेसलेस बनाने की प्रक्रिया में जुटा है। साथ ही कोरोना के चलते भी यह कदम उठाए गए हैं। वाहनों को लेकर 35 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए-वाहनों के दस्तावेज को लेकर शुरू हुई ऑनलाइन सुविधा के लिए परिवहन विभाग को 35 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार 19 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक के बीच में 35357 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 17173 को मंजूर किया जा चुका है। वहीं 16033 आवेदन लंबित, 2055 को वापस और 96 को नामंजूर किया गया है। ई-रिवशा लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले से समय नहीं लेना होगा-ई-रिवशा का लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले से समय लेकर इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होगी। आवेदक सिर्फ ऑनलाइन फीस जमा करके किसी भी कार्यदिवस में संबंधित मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस (एमएलओ) कार्यालय में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच जाकर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है।

## कोरोना से बचाने को नया नियम:

# बाजार जाने पर पांच रुपए शुल्क, एक घंटे से ज्यादा रुके तो 500 रुपए जुर्माना

मुंबई। तरह-तरह के उपायों को आजमाने के लिए मजबूर कर देने वाली कोरोना महामारी के कारण अब एक और उपाय सुविधियों में है। महाराष्ट्र में नासिक जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए बाजार में प्रवेश पर पांच रुपये का शुल्क लगा दिया है। यह शुल्क एक घंटे तक मान्य होगा। एक घंटे से अधिक समय तक बाजार में रहने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार में ज्यादा भीड़ नहीं एकत्र होने देने के मकसद से पांच रुपये का टिकट जारी किया गया है। बिना टिकट के बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। पुलिस आयुक्त दीपक पांडेय ने कहा-नासिक में संक्रमण

रोकने के लिए हम अलग तरह का कदम उठा रहे हैं, शहर को लॉकडाउन से बचाने के लिए बाजार में प्रवेश से पहले टिकट खरीदना जरूरी किया गया है। बाजार को चारों तरफ से सील करके केवल एक जगह से खोला जाएगा ताकि आने-जाने वालों पर नजर रखी जा सके। बाजार के अंदर के लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेहड़ी-पटरी लगाने वालों और फल-सब्जी विक्रेताओं को पास जारी किया गया है। महाराष्ट्र में आईसीयू बेड तेजी से भर रहे-महाराष्ट्र के स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे ने लोगों से कहा है कि वे अपनी कोरोना जांच कराएं। टोपे ने कहा-लोग देरी से जांच करा रहे



हैं, इसलिए उनकी हालत अस्पताल आते-आते काफी खराब हो चुकी होती है, इससे आईसीयू और ऑक्सिजन बेड तेजी से भर रहे हैं। मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र लॉकडाउन को अब बदरिश्त नहीं कर सकता, इसलिए

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। औरंगाबाद में लॉकडाउन का फैसला रद्द-महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन लगाने का फैसला रद्द कर दिया गया है। यहां

लॉकडाउन 31 मार्च रात 12 बजे से लगने वाला था, लेकिन जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने फैसला रद्द करने का निर्णय लिया। जनता के विरोध के बीच औरंगाबाद प्रशासन को प्रस्तावित तालाबंदी स्थगित करनी पड़ी। 31 मार्च से 9 अप्रैल तक बंदी होनी थी पर स्थानीय लोगों ने इसे न लागू करने की मांग उठाई। अब प्रशासन संक्रमण थामने के लिए दूसरे नियम लागू करेगा जिनकी घोषणा बुधवार को होगी। औरंगाबाद उम्र 10 जिलों में शामिल है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित बताया है। गुजरात के शहरों में रात्रिकालीन

कर्फ्यू 15 अप्रैल तक बढ़ा गुजरात के प्रमुख शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सुरत और राजकोट में रात्रिकालीन कर्फ्यू को 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इन चारों शहरों में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। गुजरात में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 12,041 है, ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,86,577 है और संक्रमण से अब तक 4500 लोगों की मौत हो चुकी है।



## संपादकीय

## अमी से तपन

सर्दी के दिन अपने समय से कुछ पहले ही बीत गए और गरमी के दिनों ने कुछ पहले ही दस्तक दे दी है। होली के समय आमतौर पर पारा इतना नहीं चढ़ता है, लेकिन जब देश होली मना रहा था, तब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा 76 साल के अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इस समय के सामान्य तापमान से आठ डिग्री ज्यादा को भीषण गरमी करार दिया गया। जब पारा यू अचानक बढ़ता है, तब हर दृष्टि से वह खतरनाक होता है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मार्च, 1945 को मार्च महीने का यह सबसे गरम दिन था, जब दिल्ली में तापमान अधिकतम 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भीषण गरमी के बाद दिल्ली में लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक चल रही हवाओं का असर है कि होली के दिन की तुलना में तापमान कुछ नीचे आया है। कूल मिलाकर, गरमी का भरपूर एहसास हो रहा है। आम तौर पर साल के इन दिनों में देश में तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। चिंता होती है, अभी घरती के तपने के लिए अप्रैल, मई और जून जैसे महीने पड़े हैं। जब मार्च में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया, तो फिर आगे क्या होगा? देश के एक विशाल क्षेत्र में शुष्क मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार से पूरे उत्तर भारत में मौसम रूखा-सूखा होने लगा है। दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में लू जैसी स्थिति अभी से बनने लगी है। लू या हीट वेव की घोषणा अभी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यह सच है कि मौसम विभाग के पैमाने पर यह हीट वेव ही है। सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री अधिक तापमान होने पर हीट वेव की स्थिति बनती है और सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर गंभीर हीट वेव की घोषणा होती है। कम से कम अप्रैल में गंभीर हीट वेव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। दक्षिण भारत के इलाके भी तप रहे हैं, पर वहां कहीं-कहीं बारिश की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश से तापमान काबू में रहेगा, लेकिन गुजरात से ओडिशा तक पारा चढ़ता चला जाएगा। मौसम में आया यह अचानक बदलाव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। एक तो कोरोना मामलों में बढ़त वैसे ही चिंता में डाल रही है और ऊपर से बढ़ती गरमी ने सोचने पर विवश कर दिया है। बदलते मौसम और महामारी के साये में हमें पूरे इंतजाम के साथ रहना होगा। अनेक जगह तेज बहती हवा में धूल भी है और इससे भी सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ता है। इन दिनों हर हाल में मास्क पहनना हमारी सेहत के लिए जरूरी हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दिखने लगा है। पिछले सप्ताह कहीं-कहीं कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। ऐसे में, सतर्कता का स्तर और ऊंचा करना हमारी मजबूरी है। मौसम के प्रति वैज्ञानिकों को भी ज्यादा सजग रहना पड़ेगा और डॉक्टरों के साथ-साथ पर्यावरण के मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को भी ज्यादा मुस्तेदी से अपने-अपने काम को अंजाम देना होगा। ऐसे बदलता मौसम और ऐसी महामारी शायद हमारी जीवन शैली में आमूल-चूल बदलाव की मांग कर रही है।



## आज के ट्वीट

प्रयास

लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका निरंतर प्रयास करना है।

-- विवेक बिन्दा

## ज्ञान गंगा

## ध्यान

आचार्य रजनीश ओशो/ ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सरल है। थोड़ी-सी धैर्य की क्षमता चाहिए। और खोने को क्या है? अगर कुछ न भी मिला, तो घंटे भर आराम ही हो लेगा। लेकिन मैं जानता हूँ अपने अनुभव से और उन हजारों लोगों के अनुभव से, जिनको मैंने इस प्रक्रिया से गुजारा है, एक दिन वह घड़ी आ जाती है, कि मन का रास्ता खाली हो जाता है, जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। और जब जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तब सिर्फ जानने वाला शेष नहीं रह जाता। और उस जानने वाले को अब कोई उपाय नहीं है किसी और को जानने का, सिवाय अपने को जानने के। जानना उसका स्वभाव है। आज वह अपने को ही जानता है। और एक बार भी किसी ने अपना स्वाद ले लिया, तो उसने अमृत का स्वाद ले लिया। फिर न कोई अंधेरा है, फिर न कोई अचेतना है। और वह एक घड़ी धीरे-धीरे तुम्हारे चौबीस घड़ियों पर फैल जाएगी। रहोगे फिर भी तुम बाजार में, रहोगे फिर भी तुम घर में। वहीं होगी पत्नी, वहीं होंगे बच्चे। लेकिन तुम वहीं नहीं होओगे। तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घटित हो जाएगी। तुम्हारे देखने के सारे परिप्रेक्ष्य, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी। एक शांति-और ऐसी शांति, जिसकी कोई गहराई कभी नाप

नहीं सका। और एक प्रकाश, और एक ऐसा प्रकाश, जिसमें न तो कोई तेल है, न कोई बाती है-बिन बाती बिन तेल। इसलिए उसके चुकने का कोई सवाल नहीं है। इस अनुभूति के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। और इस अनुभूति को पा लेना उस परम ऐश्वर्य को पा लेना है, जो कभी चुकता नहीं है। फिर तुम दोनों हाथ उलीच सकते हो, लेकिन उसे खाली नहीं कर सकते। इस ऐश्वर्य की स्थिति को ही हमने ईश्वर कहा है। ईश्वर ऐश्वर्य शब्द से ही बना है। इसलिए हमारे पास ईश्वर के लिए जो शब्द है, वह दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। तुम्हें याद रहे, इसलिए दोहरा दूँ। पहली बात, जिसे तुम समझदारी समझते हो बुद्धि की, वह बुद्धि की भी समझदारी नहीं है। दूसरी बात, तुम जिसे बहुत कठिन समझ रहे हो, वह बहुत सरल है, बहुत सहज है। सिर्फ तुमने प्रयास ही नहीं किया। तुम्हारी सारी शिक्षा-दीक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे संस्कार तुम्हें दौड़ना सिखाते हैं दूसरे के पीछे। महत्वाकांक्षा सिखाते हैं-धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए। दुर्भाग्य है हमारा कि अब तक हम एक ऐसा समाज भी पैदा न कर सके, जो तुम्हें कुछ सिखाता हो राज की वे बातें कि कैसे तुम अपने को पहचान लोगे।



## भारत के सामने घुटने पर आया पाकिस्तान



- विक्रम उपाध्याय

पाकिस्तान अपनी उस जिद से वापस आ गया जिसने उसने कहा था कि जबतक जम्मू-कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल नहीं हो जाती और राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तबतक भारत से कोई बातचीत नहीं करेगा। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ हर प्रकार के व्यवसायिक संबंध तोड़ दिये थे। बुधवार 31 मार्च को पाकिस्तान के कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि निजी कंपनियां भारत से चीनी और कपास

की खरीददारी कर सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया है कि वह बिना भारत के सहयोग के अपनी अर्थव्यवस्था अब नहीं चला सकता। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। वहां आटा 75 रु. और चीनी 120 रुपये प्रति किलो बिक रही है। पाकिस्तान में गेहूँ और कपास की पैदावार भी काफी गिर गयी है, जिस कारण वहां खाने के लाले पड़े हैं और कपड़े के निर्यात में पाकिस्तान बुरी तरह पिछड़ गया है। भारत ही उसके लिये सबसे नजदीक और उपयुक्त देश है, जहां से वह अपनी आवश्यकताओं को बचाने के लिये सहयोग प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर पर अपनी पूर्व की स्थिति से समझौता करने को तैयार हो गया है।

अर्थिक रहे हैं। जबसे पाकिस्तान में इमरान की सरकार आयी है तब से उनकी आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान पर इस समय 120 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसकी कुल जीडीपी का 87 प्रतिशत है। पाकिस्तान जितना राजस्व वसूलता है उसका 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशी कर्ज की व्याज अदायगी में खर्च हो जाता है। उसपर से आईएमएफ का 6 अरब डॉलर का कर्जा उसके लिये मुसीबत बनता जा रहा है। आईएमएफ की शर्तों के कारण पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। बिजली, गैस और आर्थिक सुविधाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां

तक कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए पार्क और मैदान भी गिरवी रखने लगा है। पाकिस्तान में इमरान खान ने तीन-तीन वित्तमंत्री बदल दिये लेकिन हालात में सुधार नजर नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान स्टेट बैंक के प्रबन्धन को भी आईएमएफ के हवाले करने जा रहा है। इस संबंध में अफगानिस्तान या हिल की तैयारी की जा रही है। उद्योगों को मिल रही कर छूट की सुविधा भी समाप्त कर दी गयी है और विदेशी कर्ज वापस करने के लिये नये कर्ज पाकिस्तान को मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में उसके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था कि भारत के साथ सम्बन्ध सुधारे और बन्द व्यापार को दोबारा चालू करे। यही कारण है कि कुछ समय के लिये ही सही पाकिस्तान सभी विवादित मुद्दों पर खामोशी ओढ़ने के लिये तैयार हो गया। पाकिस्तान में हमेशा भारत विरोधी अभियानों को हवा मिलती रही है। कभी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से तो कभी वहां पल रहे आतंकवादी गुटों के समर्थन से। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी एक पंज पर है। दोनों अपने मुल्क को बचाने के लिये भारत से हर हाल में दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं। लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद जेल में है। तो मौलाना अजहर मसूद अंडरग्राउंड। भारत फिलहाल इस स्थिति में है कि वह पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकता है। यह सही मौका है कि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में किसी दखल से रोकने के लिये स्थाई समझौता हो सकता है और भारत में एक लम्बी अवधि की शांति स्थापित हो सकती है। अब चुनौती भारत की नहीं पाकिस्तान की है कि वह इस नये माहौल को बनाये रखे और अपने व भारत के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। वैसे वहां जो भी भारत के समर्थन में बोलता है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। देखें इमरान खान का ह्रथ क्या होता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

## बांग्लादेश की तरफ से सबक ले पाक

जी. पार्थसारथी

दिसंबर, 1971 में बांग्लादेश के जन्म से एक दिन पहले हेनरी किसिंजर ने दावा किया था कि स्वतंत्र रूप में यह राष्ट्र एक 'इंटरनेशनल बास्केट केस' (अर्थिक-वित्तीय रूप से अत्यंत क्षीण) बनकर रह जाएगा और अपने वजूद के लिए सदा विदेशी खेरात पर निर्भर रहेगा। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हेनरी किसिंजर और उनके बॉस राष्ट्रपति निवसन ने जो कुछ कहा और किया था, उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगभग तमाम सामाजिक और आर्थिक सूचकांकों में पछाड़ दिया है। ठीक इसी समय शेख हसीना बेगम ने द्विपक्षीय लाभ के लिए चीन, पश्चिमी जगत, भारत और अन्य मित्र देशों के साथ अपने संबंध बड़ी दक्षता से बनाकर रखे हुए हैं बल्कि आज यह पाकिस्तान है, जो 'इंटरनेशनल बास्केट केस' बना हुआ है, जिसे खेरात पाने के लिए चीन और जी-20 संगठन के दौंगर मुल्कों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे कि विश्व बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे लगातार हाथ फैलाना पड़ रहा है और सिर पर चढ़े भारी कर्ज को उतारने के लिए खासी मशकत करनी पड़ रही है। पाकिस्तान को अपना बोझ हल्का करने के लिए चीन के निजी बैंकों से ऋण लेना पड़ रहा है। बांग्लादेश यात्रा में जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गर्मजोशी के साथ हुआ है, वह तस्दीक है कि बांग्लादेश को आज भी याद है कि कैसे भारत ने स्नेह और उदारता से 90 लाख शरणार्थियों को पनाह दी थी, जिन्हें जनरल टिका खान के जुल्मो-सितम की वजह से दरबंद होना पड़ा था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्णायक नेतृत्व की प्रशंसा की है। समय बीतता गया और बांग्लादेश 'इंटरनेशनल बास्केट केस' न होकर दुनियाभर में वस्त्रों के अग्रणी निर्यातक देशों में एक बन गया है। मुख्य मानव संसाधन प्रबंधन सूचकांक जैसे कि महिला साक्षरता में भी अच्छी प्राप्ति पर उसे नाज है। भारत और बांग्लादेश ने अपने बीच रहे तमाम मतभेदों को सुलझा लिया है, इसमें थलीय सीमा-निशानदेही से लेकर जलीय सीमाओं का निपटारा शामिल है। हालांकि, भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों के विषय में बयानबाजी से पहले धैर्य रखना ज्यादा मुनासिब होगा। जहां बांग्लादेश ने निर्यात, आर्थिक प्रगति और मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में तेज छलांगे लगाई हैं, वहीं पाकिस्तान के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती, जो लगभग तमाम मानव संसाधनों में फिस्सडी सिद्ध हुआ है। पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे कट्टरवादी संगठनों को शह देकर बांग्लादेश के भीतर तनाव पैदा करने के अलावा उसके साथ द्विपक्षीय आर्थिक अथवा क्षेत्रीय सहयोग संबंध सुधारने में बहुत कम यत्न किए हैं पाकिस्तान चीन को जम्मू-कश्मीर की शकसगाम घाटी पहले ही सौंप चुका है और गिलगित-बाल्टिस्तान में चीन की बढ़ी हुई आर्थिक एवं सैन्य उपस्थिति को स्वीकार कर वहां का नियंत्रण धीरे-धीरे चीनी हाथों में देने का पूरा इंतजाम किए बैठा है।



यह भी साफ है कि केवल समय की बात है जब ग्वारद बंदरगाह पर ज्यादातर नियंत्रण चीनियों का होगा, जिसे वह बलुचिस्तान में विकसित कर रहा है। इस तरह का नियंत्रण वह पहले ही श्रीलंका के हम्बन्तोता बंदरगाह पर बना चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से 4 फिगट श्रेणी के युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदने का सौदा किया है। इससे सिर पर चढ़ी भारी कर्ज की गठरी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उक्त सारे घटनाक्रम के बीच 25 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशंस (डीजीएमओ) ने अप्रत्याशित घोषणा की है, यह ऐसे समय पर आई है जब जम्मू-कश्मीर में वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा पर लगातार शांति भंग की खबरें मिल रही थीं। भारत और पाकिस्तान वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा पर सख्ती से शांति बनाए रखने को सहमत हो गए हैं। इस स्वागतयोग्य फैसले के पीछे जाहिर है 'पद के पीछे चली' वार्ताओं का हाथ है। पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा ने 16 मार्च को एक कदम आगे जाते हुए कहा कि 'समय आ गया है कि पुराने इतिहास को दफन कर आगे बढ़ा जाए।' कोई हेरानी नहीं कि इस घोषणा में इस शर्त का दुमछला नथी था कि सही माहौल बनाने की जिम्मेवारी भारत की बनती है, खासकर भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में। इस बयान के साथ वही चिर-परिचित 'ब्लैकमेल मंत्र' भी नथी था, बार-बार कहा जाता है दोनों मुल्क परमाणु शक्ति संपन्न हैं। जहां एक ओर भारत में प्रधानमंत्री इमरान खान कूटनीतिक भाषा कम ही बरतते हैं, वहीं जनरल बाजवा अपेक्षाकृत संयमित रहे हैं, वे अपने पूर्ववर्ती राहिल शरीफ की बनिस्बत भारत का जिन्न करत वक्त ज्यादा नफासत और वाकपटुता बरतते हैं। किंतु यह कोई नई बात नहीं है। पहले-पहल जनरल मुशरफ का रुख भी तेज-तरंग था, किंतु कारगिल में मिली चोट से सबक लेकर उन्होंने वर्ष 2003 में जम्मू-कश्मीर मसले पर दोनों मुल्कों के बीच सहमति के अंतर्गत सीमा-पारीय आतंकी घुसपैठ पर रोक लगा दी थी। मुशरफ ने विशेष तौर पर अपना जानशीन जनरल अशाफाक कयानी को चुना था, लेकिन उसने

उपरोक्त समझौते की उस हर चीज को बदल डाला जिस पर मुशरफ राजी हुए थे। 26 नवम्बर को लश्कर-ए-तैयबा द्वारा मुंबई में बरपाए गए आतंकी कहर का जिम्मेवार भी कयानी था। खुद मुशरफ अपने पूर्ववर्ती जनरल जहांगीर करामात से काफी अलहदा थे, जो मुदुभाषी थे, अपने निर्णय सावधानी से किया करते थे और दमगजे मारने से परहेज रखा करते थे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जनरल बाजवा के बाद आने वाला नया सेनाध्यक्ष उनके मौजूदा निर्णय को जारी रखेगा। फिलहाल बाजवा सेवा-विस्तार के तहत हैं और नवम्बर, 2022 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसलिए यह मानना तार्किक होगा कि जब तक कोई अनहोनी न हो जाए तब तक निश्चित होकर, किंतु सावधानीपूर्वक, 'पद के पीछे' संवाद चलाए जा सकते हैं। इसमें यदि कोई अड़चन पड़ी तो वह प्रधानमंत्री इमरान खान की गर्मिजाजी की वजह से होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान सबक सीखेगा कि जम्मू-कश्मीर या अन्य समस्याओं पर वार्ता प्रक्रिया पाकिस्तान की मांग से बंधी नहीं है। जम्मू-कश्मीर में सैवधानिक बदलाव को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह से भारत का सर्वाधिकार है, जिसकी गति सरकार और नागरिक अपने मुताबिक तय करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान के साथ संबंधों में संवाद चार-टी यानी ट्रेड-ट्रेवल-ट्रांसि-टूरिज्म पर केंद्रित रहेगी। बेहतर होगा कि जम्मू-कश्मीर पर बातचीत 'पद के पीछे' रखी जाए। भारत को 'कांड' प्रक्रिया में आगे बढ़कर अपनी सामरिक सार्वभौमिकता और अधिक सुदृढ़ करनी चाहिए। यह काम जहां एक ओर रूस के साथ अपने पुराने संबंध कायम रखते हुए करना होगा वहीं मुख्य शक्तियां जैसे कि जापान, फ्रांस और यूके से साथ रिश्तों को अधिक प्रगाढ़ करते हुए किया जाए। पड़ोसी मुल्क जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार को अब भारत की सामरिक अनिवार्यताएँ एकदम स्पष्ट हैं। तथापि चीन से दरपेश सीमा संबंधी चुनौतियों से निपटने में एशियन सदस्यों के साथ ज्यादा एकजुटता दिखाने में बहुत कुछ करना बाकी है। लेखक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं।

## आज का राशिफल

<b>मेष</b>	व्यावसायिक समस्या सुलझाने में आप सफल होंगे। वाणी की सौम्यता आपके लिए लाभदायी होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। आर्थिक लाभ होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।
<b>वृषभ</b>	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रहें।
<b>मिथुन</b>	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।
<b>कर्क</b>	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
<b>सिंह</b>	दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रहें। आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। तनाव व टकराव की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी।
<b>कन्या</b>	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
<b>तुला</b>	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
<b>वृश्चिक</b>	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी।
<b>धनु</b>	व्यावसायिक योजना सफल होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
<b>मकर</b>	जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। खान-पान में सावधानी रहें। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
<b>कुम्भ</b>	पारिवारिक जनों के मध्य सुखद समय गुजरेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वाणी की सौम्यता बनाये रहें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुबंध मिलेंगे। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा।
<b>मीन</b>	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। भाई या पड़ोसियों से अकारण विवाद हो सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।





### वेदांता की भारत में तांबा स्मेल्टर संयंत्र लगाने की योजना

नयी दिल्ली, जाने-माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लि. की भारत में करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से तांबा स्मेल्टर संयंत्र लगाने की योजना है। वेदांता रिसोर्सेज की अनुपंगी वेदांता लि. ने 500 किलो टन सालाना क्षमता के स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर करीब 1,000 एकड़ जमीन के लिये राज्यों से रूचि पत्र देने को कहा है। बुधवार को जारी रूचि पत्र दस्तावेज के अनुसार परियोजना में अनुमानित निवेश 10,000 करोड़ रुपये है। इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

### भारत, मॉरीशस के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक अप्रैल से आएगा प्रभाव में

नयी दिल्ली, वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक अप्रैल से अमल में आ जाएगा। इससे मॉरीशस के बाजारों में रियायती शुल्क दरों पर कई भारतीय उत्पादों को आसान पहुंच हो सकेगी। भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता (सीईसीपीए) पर 22 फरवरी को दस्तखत किये थे। सीईसीपीए एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है। मंत्रालय ने कहा, "दोनों पक्षों ने आंतरिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और भारत-मॉरीशस सीईसीपीए बृहस्पतिवार एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आ जाएगा।" समझौते में भारत से निर्यात योग्य 300 वस्तुएं शामिल हैं। इसमें खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि उत्पाद, कपड़ा, मूल धातु, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक और रसायन आदि शामिल हैं। बयान के अनुसार मॉरीशस को अपने 615 उत्पादों के लिये भारत में तरजीही बाजार पहुंच मिलेगा। इन उत्पादों में बिस्कुट, ताजे फल, जूस, साबुन, बैग, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण आदि शामिल हैं।

### चीनी सोलर पैनल खरीदने पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिकी सांसदों ने विधेयक पेश किया

वाशिंगटन. अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने चीन द्वारा शिनजियांग प्रांत में कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी कराए जाने के मद्देनजर संघीय धन के इस्तेमाल से चीन में स्थित कंपनियों से सौर पैनल खरीदने पर रोक लगाने की मांग की है और इस संबंध में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के लिए प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक द्वारा मानक और दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत है, ताकि चीनी सोलर पैनल खरीदने के लिए संघीय धन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सके। इसमें संघीय विभागों और एजेंसियों द्वारा खरीदे गए सौर पैनलों की मात्रा के बारे में एक रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। सांसद मार्को रुबियो ने कहा कि बीजिंग ने साफ कर दिया है कि चीन में व्यापार करने के लिए अमेरिकी मूल्यों को पीछे छोड़ना होगा। दूसरी ओर चीन ने दुरुपयोग के आरोपों का बार-बार खंडन किया है।



## मार्च महीने में हुआ रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन, सरकार को मिले 1.23 लाख करोड़ रुपए

नेशनल डेस्क।

माल एवं सेवा कर राजस्व संग्रह के मामले में मार्च, 2021 में एक नया रिकॉर्ड बना है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा, जीएसटी राजस्व पिछले छह महीनों के दौरान एक लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, और इस अवधि में तेजी से वृद्धि के रूझानों से महामारी के बाद आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन जीएसटी को

लॉन्च करने के बाद से सबसे ज्यादा रहा है। मार्च 2020 में यह 97590 करोड़ रुपए रहा था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 119875 करोड़ और फरवरी में 113143 करोड़ रुपए रहा था। मंत्रालय ने आगे कहा कि जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी प्रणाली सहित बहुपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी की गई है, जिसने राजस्व संग्रह में तेजी से वृद्धि के रूझानों से महामारी के बाद आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन जीएसटी को

रुपए, राज्य जीएसटी के 29,329 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी के 62,842 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा 31,097 करोड़ रुपए सहित), और उपकर के 8,757 करोड़ रुपए (वस्तुओं के आयात पर जमा 935 करोड़ रुपए सहित) शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मार्च 2021 के दौरान जीएसटी राजस्व, जीएसटी की शुरुआत से सबसे अधिक है। पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह की प्रवृत्ति के अनुरूप ही मार्च 2021 में राजस्व संग्रह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है।



### कालिटी टेस्ट में फेल हुई जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, 15 मिलियन डोज की जाएगी नष्ट

बिजनेस डेस्क। जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) ने बताया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन की एक खेप गुणवत्ता जांच में असफल रही है और ये इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। माना जा रहा है कि वैक्सीन की करीब 15 मिलियन डोज बर्बाद हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इससे भविष्य में आपूर्ति कितनी प्रभावित होगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि एमजेंट बायोसॉल्यूशंस द्वारा बनाई गई वैक्सीन सामग्री गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। कंपनी ने हाल में मंजूरी प्राप्त अपनी वैक्सीन के विनिर्माण में तेजी लाने के लिए 10 कंपनियों के साथ करार किया है, और एमजेंट बायोसॉल्यूशंस उनमें से एक है। हाल ही में WHO ने Johnson & Johnson की कोविड-19 वैक्सीन को इमर्जेंसी यूज के लिए मंजूरी दी थी। ये मंजूरी यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पहल के तहत दी गई थी। WHO चीफ टेड्रोस एडेहमन ग्रेडेनस ने कहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के मंजूरी मिलने से हम महामारी को नियंत्रित करने के एक कदम और करीब हो गए हैं।



## सरकार ने ब्याज दरें घटाने का फैसला लिया वापस, छोटी बचत योजनाओं पर पहले की तरह ही मिलेगा फायदा

बिजनेस डेस्क।

छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में की गई भारी कटौती के फैसले से पलटते हुए सरकार ने वीरवार को कहा कि इन योजनाओं पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर जिन दरों से ब्याज मिल रही थी, वही ब्याज दरें वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भी जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे, उसे वापस नहीं लिया जा रहा है और इन पर पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय इन योजनाओं पर हर तिमाही ब्याज दरों की घोषणा करता है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में आधी फीसदी से लेकर एक फीसदी तक की कटौती करने का निर्णय लिया था, जिससे पीपीएफ पर ब्याज दर 46 साल के निचले स्तर पर आ गया था। इस पर 46 साल में पहली बार ब्याज दर 7 फीसदी से नीचे 6.4 प्रतिशत पर आ गया था। इसी तरह से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर भी ब्याज दर को 6.8 फीसदी से कम कर 5.9



फीसदी कर दिया गया था। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर को 7.6 प्रतिशत से कम कर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। किसान विकास पत्र पर भी ब्याज दर को 6.9 फीसदी से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया गया था। डाकघर बचत योजना पर ब्याज दर को चार प्रतिशत से कम कर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया था। इसी प्रकार, दो साल के लिये मियादी जमा पर ब्याज 0.5 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत, तीन

साल की अवधि के मियादी जमा पर ब्याज 0.4 प्रतिशत कम किया गया था जबकि पांच साल के लिये मियादी जमा पर ब्याज 0.9 प्रतिशत कम कर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया था। बालिकाओं के लिये बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज 2021-22 की पहली तिमाही के लिये 0.7 प्रतिशत घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने 2016 में ब्याज दर तिमाही आधार पर तय किये जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज सरकारी बांड के प्रतिफल से जुड़ी होंगी।

## पीपीएफ समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती



नयी दिल्ली, सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की। यह कटौती एक अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिये की गयी है। ब्याज दर में घटने के रूझान के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून अवधि के लिये विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें संशोधित की गयी हैं। पंच वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 0.9 प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गयी है। इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती है। अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून अवधि के लिये विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें संशोधित की गई हैं।

मिला था। ब्याज में सर्वाधिक 1.1 प्रतिशत की कटौती एक साल की मियादी जमा राशि पर की गयी है। अब इस पर ब्याज 4.4 प्रतिशत होगा जो अबतक 5.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार, दो साल के लिये मियादी जमा पर ब्याज 0.5 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत, तीन साल की अवधि के मियादी जमा पर ब्याज 0.4 प्रतिशत कम किया गया है जबकि पांच साल के लिये मियादी जमा पर ब्याज 0.9 प्रतिशत कम कर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है। बालिकाओं के लिये बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज 2021-22 की पहली तिमाही के लिये 0.7 प्रतिशत घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर सालाना ब्याज दर 0.7 प्रतिशत कम कर 6.2 प्रतिशत कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय ने 2016 में ब्याज दर तिमाही आधार पर तय किये जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज सरकारी बांड के प्रतिफल से जुड़ी होंगी।

### सार्वजनिक निर्गम: सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा घटायी

नयी दिल्ली, बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को निवेशकों का पैसा लौटाने की समयसीमा कम कर चार दिन करने का निर्णय किया। इसके तहत अगर निवेशक को न्यूनतम संख्या में संबंधित शेयर नहीं मिलता है या निर्गम जारी करने वाला शेयर बाजारों से सूचीबद्ध होने या कारोबार की मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहता है, उसे ऐसी स्थिति में निवेशकों का पैसा चार दिन में लौटाना होगा। फिलहाल निवेशक को न्यूनतम अधिदान (शेयर) नहीं मिलने पर निर्गम जारी करने वाले को पूरा पैसा निर्गम बंद होने के 15 दिन के भीतर लौटाना होता है। वहीं अगर निर्गम जारी करने वाली कंपनी सूचीबद्ध होने या कारोबार को लेकर शेयर बाजारों से मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहती है, उसे निवेशकों का पूरा पैसा शेयर बाजार से आवेदन निरस्त होने की सूचना मिलने के सात दिन के भीतर वापस करना होता है। इस समयसीमा को कम कर अब चार दिन कर दिया गया है। इस बात पर गौर करते हुए समयसीमा कम की गयी है कि सार्वजनिक निर्गम में सभी आवेदनकर्ताओं के लिये एसबीए (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक एमाउंट) अब अनिवार्य है। इस व्यवस्था के तहत आवेदन राशि का हस्तांतरण नहीं होता बल्कि उसे निवेशक के खाते में 'रोक कर रखा जाता है।' शेयर आवंटन होने के बाद ही राशि ली जाती है।

## आम आदमी की बचत में सेंध: पीपीएफ समेत कई बचत योजनाओं में घटाई गई ब्याज दर

नयी दिल्ली:

सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1 प्रतिशत तक की कटौती की। यह कटौती एक अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिये की गई है। ब्याज दर में घटने के रूझान के अनुरूप यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पीपीएफ पर ब्याज 0.7 प्रतिशत कम कर 6.4 प्रतिशत जबकि एनएससी पर 0.9 प्रतिशत कम कर 5.9 प्रतिशत कर दी गई है। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती है। अधिसूचना के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही अप्रैल-जून अवधि के लिए विभिन्न लघु बचत

योजनाओं पर ब्याज दरें संशोधित की गई हैं। सीनियर सिटिजन्स को मिलेगा कम ब्याज पंच वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 0.9 प्रतिशत घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है। पहली बार बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज 0.5 प्रतिशत घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दी गई है। अबतक इस पर सालाना 4 प्रतिशत ब्याज मिलता था। ब्याज में सर्वाधिक 1.1 प्रतिशत की कटौती एक साल की मियादी जमा राशि पर की गई है। अब इस पर ब्याज 4.4 प्रतिशत होगा जो अबतक 5.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार, दो साल के लिए मियादी जमा पर ब्याज 0.5 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत, तीन साल की अवधि के मियादी

जमा पर ब्याज 0.4 प्रतिशत कम किया गया है जबकि पांच साल के लिए मियादी जमा पर ब्याज 0.9 प्रतिशत कम कर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि की ब्याज में कटौती बालिकाओं के लिए बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज 2021-22 की पहली तिमाही के लिए 0.7 प्रतिशत घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया गया है। किसान विकास पत्र पर सालाना ब्याज दर 0.7 प्रतिशत कम कर 6.2 प्रतिशत कर दी गयी है। अबतक इस पर ब्याज 6.9 प्रतिशत था। वित्त मंत्रालय ने 2016 में ब्याज दर तिमाही आधार पर तय किये जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज सरकारी बांड के प्रतिफल से जुड़ी होंगी।

### सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली

नयी दिल्ली,

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों में 14,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है। यह पूंजी मुख्य रूप से उन बैंकों की वित्तीय संहत में सुधार के लिये उपलब्ध करायी गयी है, जो रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा के अंतर्गत हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उक्त रूपरेखा के अंतर्गत हैं। इसके तहत उन पर

कर्ज देने, प्रबंधन क्षतिपूर्ति और निदेशकों को शुल्क समेत कई तरह की पाबंदियां हैं। कुल राशि में से 11,500 करोड़ रुपये तीन तीनों बैंकों को जबकि शेष 3,000 करोड़ रुपये बैंक ऑफ इंडिया को उपलब्ध करायी गयी है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 4,800 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,100 करोड़ रुपये तथा कोलकाता के यूको बैंक को 2,600 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायी गयी है। पूंजी डालने

जाने से इन बैंकों को रिजर्व बैंक के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा से बाहर आने में मदद मिलेगी। पूंजी बिना ब्याज वाले बांड (रिकैपिटलाइजेशन बांड) के जारी डाली गई है जिसकी मियाद 31 मार्च, 2031 और 31 मार्च, 2036 है।



### पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई

बिजनेस डेस्क:

सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234एच के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट यूजर्स के भारी दबाव के कारण कई बार क्रैश हो गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का वित्तवित्त इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों और पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने वालों की भारी संख्या के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई। इस



कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर समयसीमा को बढ़ाने की भी मांग की। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश होने के चलते बुधवार को पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करा पाए। पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका 1. <https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home> पर जाएं। 2. बायां तरफ मौजूद Link Aadhar पर क्लिक करें। 3. अब PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। 4. इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। 5. एक कॉन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि पैन, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है।

### स्वतः ऑनलाइन भुगतान के नए दिशानिर्देशों के अनुपालन का समय बढ़ाया आरबीआई ने

मुंबई.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक सुविधाओं के बिल आदि के नियमित समायन्त्राल से भुगतान की ऑनलाइन सुविधा के संबंध में 'प्रमाणिकरण का अतिरिक्त कारक' (एएफए) के दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा छह माह के लिए बढ़ा दी है। अब इन्हें 30 सितंबर तक लागू किया जा सकता है। पर केंद्रीय बैंक ने नए दिशानिर्देशों को तय सीमा में लागू करने के लिए बैंकों एवं गैर वित्तीय कंपनियों को झिझकी लगायी है। आरबीआई ने कहा है कि इनका अनुपालन न करना 'गंभीर चिंता का विषय है।' आरबीआई ने सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और ऑनलाइन भुगतान सेवा में प्रवेश द्वार (गेटवे) की भूमिका निभाने वाली फर्मों) को भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणिकरण कारक लागू करने के निर्देश के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया था। इसका उद्देश्य आवर्ती यानी निश्चित समय पर ऑनलाइन भुगतान में घोखाधड़ी से ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना है। लेकिन कुछ फर्म इसका अनुपालन समय रहते नहीं कर सकी हैं। आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन न करना 'गंभीर चिंता का विषय है।' इसमें विलंब से ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिससे ग्राहकों को बड़े पैमाने पर असुविधा और उनके भुगतान में चूक हो सकती है। रिजर्व बैंक ने इसे देखते हुए एएफए को लागू करने का समय 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए पहली बार नियम अगस्त 2019 में जारी किए थे। पहले इसे कार्ड और वॉलेट के लिए लागू किया गया था बाद में इसे यूनीफाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर भी लागू कर दिया गया। ग्राहकों के हित और सुरक्षा में अब पहले लेन-देन के पंजीकरण के लिए प्रमाणिकरण का अतिरिक्त कारक लागू करने और लेन-देन से पहले नेटोफिकेशन (एसएमएस) भेजने और व्यवस्था से बाहर निकलने की सुविधा आदि देने का प्रावधान किया गया है।



लेकिन कुछ फर्म इसका अनुपालन समय रहते नहीं कर सकी हैं। आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन न करना 'गंभीर चिंता का विषय है।' इसमें विलंब से ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिससे ग्राहकों को बड़े पैमाने पर असुविधा और उनके भुगतान में चूक हो सकती है। रिजर्व बैंक ने इसे देखते हुए एएफए को लागू करने का समय 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए पहली बार नियम अगस्त 2019 में जारी किए थे। पहले इसे कार्ड और वॉलेट के लिए लागू किया गया था बाद में इसे यूनीफाइड भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पर भी लागू कर दिया गया। ग्राहकों के हित और सुरक्षा में अब पहले लेन-देन के पंजीकरण के लिए प्रमाणिकरण का अतिरिक्त कारक लागू करने और लेन-देन से पहले नेटोफिकेशन (एसएमएस) भेजने और व्यवस्था से बाहर निकलने की सुविधा आदि देने का प्रावधान किया गया है।





## फुटबाल : विश्व कप कालीफायर में नॉर्थ मेसेडोनिया ने जर्मनी को हराकर किया उलटफेर

बुइसबर्ग (जर्मनी). एलियज अल्मास के आखिरी मिनटों में किए गए मैच जिताऊ गोल की बदौलत नॉर्थ मेसेडोनिया ने फीफा विश्व कप 2022 कालीफायर में खेले गए मुकाबले में 2014 की विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। डीपीए न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार रात खेले गए इस मुकाबले में गोरान पेनडेव ने 45वें मिनट में ही शानदार गोल करके नॉर्थ मेसेडोनिया हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़त दिला दी। मेजबान जर्मनी ने हालांकि दूसरे हाफ में वापसी कर ली और टीम ने 63वें मिनट में इल्की गुडोबेन द्वारा पेनाल्टी पर किए गए गोल के सहारे 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। दोनों टीमों के बीच मुकाबला आगे और ज्यादा दिलचस्प हो गया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस मैच में अंक बांटने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अल्मास ने 85वें मिनट में बेहतरीन गोल करते हुए नॉर्थ मेसेडोनिया को 2-1 की लीड दिला दी और पूर्व विश्व चैंपियन जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद नॉर्थ मेसेडोनिया अपने ग्रुप जे में छह अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। एक अन्य मैच में आइसलैंड ने लिस्टोनटीन को 4-1 से करारी मात दी।



## ऑकलैंड टी20 : एलेन की तूफानी पारी से न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ किया क्लीन स्वीप



### ऑकलैंड।

फिन एलेन (71) की शानदार तूफानी पारी और टोड एशले (4/13) तथा कसान टिम साउडी (3/15) की बेहतरीन गेंदबाजी से न्यूजीलैंड ने बारिश से बाधित यहां इंडन पार्क स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 65 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीत क्लीन स्वीप कर लिया। बारिश के कारण मुकाबला 10-10 ओवरों का किया गया जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विस्फोटक शुरुआत की और

एलेन के 29 गेंदों पर 10 चौकों और तीन छकों की मदद से 71 और मार्टिन गुट्टल के 19 गेंदों पर एक चौका और पांच छकों के सहारे 44 रन की बदौलत 10 ओवर में चार विकेट पर 141 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 9.3 ओवर में 76 रनों पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से मोहम्मद नाएम ने 13 गेंदों पर एक चौके और दो छकों की मदद से सर्वाधिक 19 रन बनाए। एलेन को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एलेन ने मैच में मात्र 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके साथ वह

न्यूजीलैंड के ऐसे दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया है। एलेन से पहले कॉलिन मुनरो ने श्रीलंका के खिलाफ 2016 में खेले गए मुकाबले में 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था और वह न्यूजीलैंड के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने थे। मुनरो ने इसके अलावा 2018 में वेस्टइंडीज और 2018 में ही इंग्लैंड के खिलाफ 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। इससे पहले, न्यूजीलैंड की पारी में एलेन और गुट्टल के अलावा फिलिप्स ने 14 और डेरिल मिशेल ने 11 रनों का योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से तसकिन अहमद, शौरिफुल इस्लाम और

मेहदी हसन ने एक-एक विकेट लिया। बांग्लादेश की पारी में नाएम के अलावा मोसादेक हुसैन ने 13 और सौम्य सरकार ने 10 रन बनाए। इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका। न्यूजीलैंड की ओर से एशले और साउडी के अलावा एडम मिले, लौकी फर्ग्यूसन और ग्लेन फिलिप्स ने एक-एक विकेट लिया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पहले टी20 मैच में 66 रन और दूसरे टी20 मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम के तहत 28 रनों से हराया था। दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज से पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज हुई थी जिसमें भी न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया था।

## खेल मंत्री ने तोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारी की समीक्षा की

### नई दिल्ली।

तोक्यो ओलंपिक के आयोजन में अब जब तीन महीने से कुछ अधिक का समय बचा है तब खेल मंत्री किरें रीजीजू ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके खिलाड़ियों की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार को हुई इस बैठक में भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के शीर्ष अधिकारियों, आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा, महासचिव राजीव मेहता और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के प्रमुख आदिले सुमारिबाला ने हिस्सा लिया। रीजीजू ने टवीट किया कि अधिकारियों और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष



नरिंदर बत्रा, महासचिव राजीव मेहता और अन्य सदस्यों के साथ साइ मुख्यालय में ओलंपिक की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। तोक्यो ओलंपिक के लिए कालीफाई करने वाले अपने खिलाड़ियों का संक्षिप्त और आकर्षक वीडियो बनाएगा। पता चला है कि बैठक के दौरान

भारतीय खिलाड़ियों की तोक्यो खेलों की तैयारियों की नियमित समीक्षा की गई। तोक्यो खेलों का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होगा है। सूत्रों के अनुसार ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कोविड-19 टीका लगाने के मुद्दे पर बैठक में चर्चा नहीं की गई।



## ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में होंगे महिला विश्व कप के मैच

सिडनी। महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 के मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नौ शहरों में खेले जाएंगे। पहला मैच ऑकलैंड के इंडन पार्क में होगा जबकि फाइनल सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों एक-एक सेमी-फाइनल की मेजबानी करेंगे। यह पहला विश्व कप होगा जिसे दो अलग अलग परिसरों के सदस्य संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया 2006 में एशियाई परिसर से जुड़ गया था जबकि न्यूजीलैंड ऑसिनिया परिसर का सदस्य है। यही नहीं इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमों भाग लेंगी। इससे पहले 2019 तक 24 टीमों के बीच विश्व कप खेला जाता रहा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अनुसार महिला विश्व कप 2023 के मैच एडिलेड, ऑकलैंड, ब्रिस्बेन, ड्यूनेडिन, हैमिल्टन, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी और वेलिंगटन में खेले जाएंगे।

## मियामी ओपन : सकारी ने ओसाका का विजय अभियान रोका, सेमीफाइनल में हुई एंट्री



### मियामी।

मारिया सकारी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका के 23 मैचों से चले आ रहे

विजय अभियान पर रोक लगाकर बुधवार को यहां मियामी ओपन टैनिस् टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यूनान की 23वीं वरियता प्राप्त सकारी ने विश्व में नंबर

2 ओसाका को आसानी से 6-0, 6-4 से हराया। जापानी खिलाड़ी ओसाका की फरवरी 2020 के बाद यह पहली हार है। इससे उनकी एश बाटी की जगह फिर से नंबर एक बनने की संभावना भी समाप्त हो गई है। बाटो पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। सकारी का अगला मुकाबला कनाडा की आठवीं वरिय बियांका आर्देस्कु से होगा जिन्होंने सारा सोरिवेस टॉमों को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया। महिला एकल का अन्य सेमीफाइनल बाटो और इलिन स्वितोलिना के बीच खेला जाएगा। इस बीच पुरुष एकल में इटली के 19 वर्षीय यानिक सिनर ने 32वीं वरियता प्राप्त अलेक्सान्द्र बुबलिक को 7-6 (5), 6-4 से हराकर पहली बार एटीपी टूर के शीर्ष स्तर के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

## गौतम गंभीर ने कहा : समय आ गया है कि हम जल्द से जल्द अगला विश्व कप जीतें

### नई दिल्ली।

विश्व कप 2011 में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को समझ नहीं आता कि शुक्रवार को इस खिताबी जीत के 10 साल पूरे हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद लोग अब तक इसे लेकर इतने उत्सुक क्यों हैं। दो अप्रैल 2011 को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल में गंभीर भारतीय जीत के नायकों में शामिल थे और उन्होंने 97 रन की पारी खेली थी जिसके बाद तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद अर्धशतक जड़ते हुए छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। संसद सदस्य गंभीर ने कहा,

'ऐसा नहीं लगता कि यह कल की बात है। कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं है। इसे अब 10 साल बीत चुके हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो पीछे मुड़कर काफी अधिक देखता है। बेशक यह गौरवपूर्ण लम्हा था लेकिन अब भारतीय क्रिकेट के लिए आगे बढ़ने का समय है। संभवतः समय आ गया है कि हम जल्द से जल्द अगला विश्व कप जीतें।' लेकिन कोई अपने क्रिकेट करियर के सबसे बड़े दिन को लेकर कैसे इतना उदासीन हो सकता है? सभी प्रारूपों में 242 मैचों में 10 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले गंभीर ने कहा, 'मैं ऐसा ही हूँ। गंभीर का मानना है कि लोगों को अतीत की विश्व कप की जीतों को लेकर

अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और ऐसा उन्होंने अपनी पेशेवर जिम्मेदारी के तहत किया। विश्व टी20 2007 फाइनल में भी भारत की जीत के दौरान शीर्ष स्कोरर रहे गंभीर ने कहा, '2011 में हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें विश्व कप में खेलने के लिए चुना गया था, हमें विश्व कप जीतना था। उन्होंने कहा, 'अगर हम 2015 या 2019 विश्व कप जीत जाते तो संभवतः भारत को विश्व क्रिकेट में सुपर पावर माना जाता। इसे 10 साल हो चुके हैं और हमने कोई दूसरा विश्व कप नहीं जीता। इस लिए मैं अतीत की उपलब्धियों को लेकर अधिक उत्सुक नहीं होता।'

असाधारण काम नहीं किया, हां हमने देश को गौरवावित किया, लोग खुश थे, यह अब अगले विश्व कप पर ध्यान लगाने का समय है।' गंभीर को लगता है कि लगातार विश्व स्तरीय खिलाड़ी देने के बावजूद भारत को बड़ी प्रतियोगिताओं में सीमित सफलता मिलने का कारण शायद 'पीछे मुड़कर' देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, 'अगर हम 2015 या 2019 विश्व कप जीत जाते तो संभवतः भारत को विश्व क्रिकेट में सुपर पावर माना जाता। इसे 10 साल हो चुके हैं और हमने कोई दूसरा विश्व कप नहीं जीता। इस लिए मैं अतीत की उपलब्धियों को लेकर अधिक उत्सुक नहीं होता।'

## महिला क्रिकेट : ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा

ऑकलैंड. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला टीमों के बीच यहां इंडन पार्क में हुआ तीसरा टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ बेनीतीजा समाप्त हुआ। इस मैच का नतीजा नहीं निकलने के कारण तीन मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। बारिश के कारण मुकाबला 90 मिनट की देरी से शुरू हुआ और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2.5 ओवर में एक विकेट पर 14 रन बनाए लिए थे कि तभी बारिश शुरू होने के कारण मुकाबले को रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं किया जा सका और मुकाबला बेनतीजा समाप्त हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने बेथ मूनी का विकेट जल्द ही गंवा दिया। मूनी ने चार गेंदों पर चार रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी में एलिसा हीले 11 गेंदों पर दो चौकों के सहारे आठ और कसान मेग लेनिंग दो गेंदें खेल खाता खोले बिना नाबाद रही। न्यूजीलैंड की ओर से रोजमैरी मायेर ने एक विकेट लिया। हैमिल्टन में खेले गए पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से मात दी थी जबकि नेपियर में हुए दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने चार विकेट से जीत हासिल कर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच चार अप्रैल से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी।



## आरसीबी कैम्प के लिए चेन्नई पहुंचे कोहली और डिविलियर्स

चेन्नई. आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर (आरसीबी) के कप्तान विराट कोहली और विस्फोटक बल्लेबाज अब्राहम डिविलियर्स टीम के कैम्प से जुड़ने के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। आरसीबी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कोहली और डिविलियर्स सात दिन के क्वारंटीन में रहेंगे और फिर टीम से जुड़ेंगे। उनके अलावा टीम के बाकी सदस्यों ने यहां श्री रामचंद्र उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। टीम के ट्रेनिंग कैम्प में युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, शाहबाज अहमद, पवन देशपांडे, मोहम्मद अजहररुद्दीन, रजत पाटीदार, सचिन बेबी, सुयाश प्रभुदेसाई और केएस भारत भाग ले रहे हैं। आरसीबी का नौ दिन का कॉडिशनिंग कैम्प क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन और मुख्य कोच साहमन कैटच के मार्गदर्शन में चल रहा है। टीम में संजय बांगर, एस श्रीधरन, एडम ग्रिफिथ, शंकर बासु और मालोलन रंराजन कोचिंग स्टाफ के अन्य सदस्य हैं। आरसीबी को आईपीएल 2021 में अपना पहला मैच नौ अप्रैल को चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ खेला है। पिछले सीजन में आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था, जहां वो चौथे स्थान पर रही थी।

## तोक्यो में पदक के लिए पीवी सिंधु को मैचों के बीच रिकवरी पर अधिक ध्यान देना होगा : विमल



### नई दिल्ली।

भारत के पूर्व बैडमिंटन कोच विमल कुमार का मानना है कि विश्व चैंपियन पी वी सिंधु तोक्यो ओलंपिक में भारत की सर्वश्रेष्ठ

पदक उम्मीद है लेकिन उसे यह हासिल करने के लिये मैचों के बीच रिकवरी पर अधिक ध्यान देना होगा। सिंधु जनवरी में थाईलैंड में तीन टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन नहीं कर सकी। वह स्विस ओपन के फाइनल और आल इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची लेकिन ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन और थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से हार गई। विमल ने कहा कि मारिन और

पोर्नपावी के खिलाफ मैच में उसका प्रदर्शन खराब रहा। कई बार शेड्यूल ऐसा होता है कि रिकवरी मुश्किल हो जाती है। टैनिंग खिलाड़ियों को ही देखो जो पांच छह घंटे कठिन मैच खेलने के बाद फिर पांच सेटों का मुकाबला खेलते हैं। रिकवरी काफी मायने रखती है। लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि हालिया नतीजों को देखते हुए उसका तोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अभी भी उसे बार बार चोट

लग रही है। वह क्वालीफाई कर सकती है लेकिन सब कुछ इंडिया सुपर 500 पर निर्भर करता है। उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इंडिया ओपन के बाद उसे मलेशिया और सिंगापुर में भी अच्छे खेलना होगा। खराब फॉर्म से जूझ रहे किदांबी श्रीकांत के बारे में उन्होंने कहा कि वह गुमानम खिलाड़ियों से हार रहा है जो अच्छे नतीजे नहीं हैं। उसे अपनी तकनीक और रणनीति पर काम करना होगा। मुझे लगता है कि वह काफी दबाव में है। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है जिसका असर खेल पर पड़ रहा है।

## किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी को तैयार, संगकारा से सीखने को बताव : शिवम दुबे



मुंबई। राजस्थान रॉयल्स के नए खिलाड़ी शिवम दुबे ने कहा है कि वह टीम के लिये किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी को तैयार है और क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा से बल्लेबाजी में सुधार के लिए 'अतिरिक्त टैम्स' लेना चाहते हैं। भारत के लिए एक वनडे और टी20 मैच खेल चुके दुबे को रॉयल्स ने आईपीएल की नीलामी में 4 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा। उन्होंने कहा, 'मैं कई क्रमों पर खेल चुका हूँ और मुझे किसी भी क्रम पर खेलने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए यह मायने रखता है कि टीम मुझसे क्या चाहती है।' उन्होंने कहा, 'अगर मेरी जरूरत ऊपरी क्रम में है तो मैं वहां उतरूंगा। अगर निचले क्रम पर है तो मैं फिनिशर की भूमिका भी निभा सकता हूँ। आईपीएल नीलामी के बाद संगकारा ने कहा था कि दुबे की बल्लेबाजी पर फोकस रहेगा और गेंदबाजी जरूरत पड़ने पर कुछ ओवरों के लिए कराई जा सकती है। दुबे ने कहा, 'संगकारा ने काफी क्रिकेट खेला है और वह मेरे प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। वह बताएंगे कि अपने खेल को बेहतर करने के लिये मुझे और क्या करना होगा। बल्लेबाजी के लिए अतिरिक्त सलाह लेने की कोशिश करूंगा।' उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस टीम के लिए खिताब जीतने पर है। उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी टीम के लिए खेला हूँ, मेरा मकसद खिताब जीतना ही होता है। एक पेशेवर के तौर पर आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिये, टीम आपको क्या देगी, आपको क्या भूमिका है और कोच आपको क्या देंगे। मैं राजस्थान रॉयल्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पर भरोसा किया।'

मुंबई। राजस्थान रॉयल्स के नए खिलाड़ी शिवम दुबे ने कहा है कि वह टीम के लिये किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी को तैयार है और क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा से बल्लेबाजी में सुधार के लिए 'अतिरिक्त टैम्स' लेना चाहते हैं। भारत के लिए एक वनडे और टी20 मैच खेल चुके दुबे को रॉयल्स ने आईपीएल की नीलामी में 4 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा। उन्होंने कहा, 'मैं कई क्रमों पर खेल चुका हूँ और मुझे किसी भी क्रम पर खेलने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए यह मायने रखता है कि टीम मुझसे क्या चाहती है।' उन्होंने कहा, 'अगर मेरी जरूरत ऊपरी क्रम में है तो मैं वहां उतरूंगा। अगर निचले क्रम पर है तो मैं फिनिशर की भूमिका भी निभा सकता हूँ। आईपीएल नीलामी के बाद संगकारा ने कहा था कि दुबे की बल्लेबाजी पर फोकस रहेगा और गेंदबाजी जरूरत पड़ने पर कुछ ओवरों के लिए कराई जा सकती है। दुबे ने कहा, 'संगकारा ने काफी क्रिकेट खेला है और वह मेरे प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। वह बताएंगे कि अपने खेल को बेहतर करने के लिये मुझे और क्या करना होगा। बल्लेबाजी के लिए अतिरिक्त सलाह लेने की कोशिश करूंगा।' उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस टीम के लिए खिताब जीतने पर है। उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी टीम के लिए खेला हूँ, मेरा मकसद खिताब जीतना ही होता है। एक पेशेवर के तौर पर आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिये, टीम आपको क्या देगी, आपको क्या भूमिका है और कोच आपको क्या देंगे। मैं राजस्थान रॉयल्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे पर भरोसा किया।'



# मेकअप से होती है एलर्जी तो ध्यान रखें ये बातें

मेकअप का मतलब कई सारे कॉस्मेटिक्स यानि केमिकल्स। ये सारे केमिकल्स तो आपकी स्किन के लिए सही नहीं होते। कई बार सही जानकारी न होने पर इनका इस्तेमाल आपकी स्किन में एलर्जी का कारण बन जाती है। यहां हम आपको बता रहे हैं कुछ टिप्स जिनसे आप ऐसी एलर्जी से बच सकते हैं...



**मेकअप टूल्स**  
अपने मेकअप टूल को हमेशा साफ सुथरा और धो कर रखें। अगर आपको मेकअप ब्रश या टूल गंदा है और आपने उसे इस्तेमाल कर लिया है तो, रिएक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है।

**मिनिमल मेकअप**  
अगर आपको मेकअप से एलर्जी है तो आप

बिना मेकअप के भी बाहर निकल सकती हैं। आंखों पर हल्का काजल और कुछ आयुर्वेदिक क्रीम लगा कर अलग सा लुक प्राप्त कर सकती हैं।

हैं।  
**खरीदने से पहले ऐसे करें टेस्ट**  
कोई भी मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक टेस्ट जरूर कर लें। इस टेस्ट को करने के लिये मेकअप प्रोडक्ट को अपने कान के पीछे वाले हिस्से पर जरा सा लगाएं। फिर 48 से 72 घंटे तक

का इंतजार करें। यदि आपको उससे कोई जलन या खुजली महसूस होती है तो उस

प्रोडक्ट को ना खरीदें।  
**वॉटरप्रूफ मेकअप प्रॉडक्ट्स**  
अगर आप को मेकअप लगाना ही है तो वॉटरप्रूफ या फिर केमिकल फ्री मेकअप प्रोडक्ट खरीदें। इससे आपको एलर्जी नहीं होगी।  
**परफ्यूम ऐसे करें यूज**  
अगर आपके शरीर पर परफ्यूम छिड़कने से वहां की त्वचा लाल पड़ जाती है या वहां जलन होने लगती है तो, अब से परफ्यूम शरीर पर नहीं कपड़ों पर छिड़कें।

# कार्यक्षमता में इजाफा कर आप पा सकेंगे कामयाबी

ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता का सीधा असर आपकी प्रगति पर पड़ता है। आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी या नहीं, इसका फैसला भी आपकी कार्यक्षमता को देखकर ही लिया जाता है। कैसे अपनी कार्यक्षमता में इजाफा करें, बता रहे हैं हम...

बिजनेस या नौकरी क्षेत्र का एक बिल्डर की तरफ से नौ देशों पर पुराना दस्तूर है कि हर कोई उसी छोड़े पर रस लगाना चाहता है, जो तेज भागता है। ऑफिस की स्थिति भी कमोबेश इसी तरह की होती है। बॉस अथवा सीनियर उसी कर्मचारी पर अपना भरोसा जताते हैं या

सहकर्मियों की बातों को भी गंभीरतापूर्वक सुनना होगा। उनकी बातों में दम है तो स्वीकार करें और उन्हें सराहें।

**अपडेट रहें:** लम्बी रस का घोड़ा बनने के लिए जरूरी है कि आपको हर प्लेटफॉर्म को सही जानकारी हो। समय-समय पर इन जानकारियों को अपडेट करते रहना भी जरूरी है। इसके लिए सभी संचार माध्यमों अथवा एक्सपर्ट लोगों से जानकारी जुटानी होगी। ऐसे मौके पर जब आपको किसी खास प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिली हो, अपना नेटवर्क बनाकर रखें। प्रोफेशनल्स के साथ संपर्क बढ़ाने से नए अवसरों की जानकारी मिलती रहेगी, जो आपको नई तकनीक और करियर में आगे बढ़ने के रास्ते सुझा सकते हैं।

**समस्या नहीं, समाधान बताएं:** आप जो भी काम करते हैं, उसमें समस्याएं जरूर आती हैं। हर वक़्त इन समस्याओं का रोना रोने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और आप किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपने बॉस या सहकर्मियों से बातचीत में समस्याओं का समाधान निकालने की राह बताएं। धीरे-धीरे आप फ़ैसला लेने की दिशा में मजबूत होंगे। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर अंतिम राय बनाने से पहले बॉस अथवा सीनियर से राय-मशविरा जरूर करें।



जिम्मेदारियां डालते हैं, जो हर काम बखूबी और समय से कर देता है। यानी उसकी कार्यक्षमता अधिक है। वहीं दूसरी ओर लेटलतीफ व आलसी कर्मचारी लकीर के फकीर बने रहते हैं और तरक्की के नाम पर हर साल उन्हें मायूसी हाथ लाती है। करियर

**आलोचनाओं को करें दरकिनार:** सफलता व असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ मौकों पर आप सफल रहते हैं, जबकि कई बार आप निष्ठापूर्वक कोई काम करते हुए भी असफल हो जाते हैं। आपकी असफलता पर कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, फ़ैसले पर उंगली उठती है और कमियां निकाली जाती हैं। आप इन पर ध्यान न देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें।

# महिलाएं वजन घटाने के लिए न अपनाएं शॉर्टकट

वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। पहले तो भूखे नहीं रहें, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज न करें। अपनी जीवनशैली को बदलें। अपने सोने की आदत और डाइट में आपको बदलाव लेकर आने होंगे। वर्कआउट किसी के सुपरविजन में ही करें।

**महिलाओं में वजन का बढ़ना और मोटापा आज एक बहुत ही गंभीर समस्या है। वजन घटाने के तरीके आज इंटरनेट पर सबसे अधिक सर्च किया जाना वाला प्रश्न है। वजन बढ़ने की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक देखी जाती है क्योंकि महिलाएं अपना अधिकांश समय घर में ही गुजारती हैं। इसके अलावा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मांसपेशियों का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। वजन का बढ़ना और मोटापा आपके शरीर को कई प्रकार की बीमारियों में फंसा सकता है। महिलाओं में वजन के बढ़ने के कई कारण होते हैं जैसे शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम आदि को ना करना। आइये महिलाओं के लिए वजन घटाने की टिप्स को विस्तार से जानते हैं।**

**कार्ब्स कम खाएं**  
रिफाइंड कार्ब्स का कम सेवन करना महिलाओं में वजन कम करने का आसान तरीका है। रिफाइंड कार्ब्स अधिक प्रसंस्करण से गुजरते हैं इसलिए उसमें फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। रिफाइंड कार्ब्स रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं, भूख बढ़ाते हैं और शरीर में वजन और पेट की चर्बी को भी बढ़ाते हैं। इसलिए रिफाइंड कार्ब्स जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता और पैक किए गए खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना सबसे अच्छा है। इसके बजाय आप जई, ब्राउन चावल, क्विनोआ, और जौ जैसे पूरे अनाज उत्पादों को खाएं।

**वजन कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि करें**  
वजन को कम करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका

शारीरिक गतिविधि करना है। महिलाएं अपने वजन को कम करने के लिए दैनिक रूटीन में वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को जोड़ें। व्यायाम करना आपके शरीर से अतिरिक्त कैलोरी को जलने में मदद करता है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हड्डियों के खनिज घनत्व को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में भी मदद करता है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अलावा आप बाइकिंग, तैराकी और जाइंगिंग से महिलाएं अपने वजन को कम कर सकती हैं।

**अधिक पानी पिएं**  
अधिक मात्रा में पानी पीना महिलाओं में वजन कम करने का एक सरल तरीका है। एक छोटे से अध्ययन के अनुसार 16.9 औंस या 500 मिलीलीटर पानी पीने से अस्थायी रूप से 30-40 मिनट के बाद कैलोरी के बर्न होने की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। अध्ययन यह भी बताते हैं कि भोजन से पहले पानी पीने से वजन कम हो सकता है और आप लगभग 13% कैलोरी का कम सेवन करते हैं।

**अधिक प्रोटीन खाएं**  
अधिक प्रोटीन का सेवन करना महिलाओं में भूख को कम करता है क्योंकि प्रोटीन पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। आप इसके लिए मांस, पोल्ट्री, समुद्री भोजन, अंडे, डेयरी और फलियां जैसे खाद्य पदार्थों को अपने आहार

का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। वास्तव में उच्च-प्रोटीन आहार को खाने से आपको भूख में कमी आ सकती है, परिपूर्णता की भावनाएं बढ़ सकती हैं और यह चयापचय को बढ़ावा दे सकता है।

**नियमित नींद लें**  
अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त नींद लेना भी आहार और व्यायाम के सामान वजन कम करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कई अध्ययनों के अनुसार नींद की कमी शरीर के वजन में वृद्धि और ब्रेलिन हार्मोन का उच्च स्तर भूख को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए पर्याप्त नींद लेना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिलाओं में एक अध्ययन से पता चला है कि प्रत्येक रात कम से कम सात घंटे की नींद लेना और समय-नींद की गुणवत्ता में सुधार करने से वजन घटाने में मदद मिलती है।

**फाइबर खाएं**  
अपने आहार में अधिक फाइबर जोड़ना वजन घटाने का एक अच्छा तरीका है जो आपको कम भोजन करने में मदद करता है और आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। अपने आहार या जीवन शैली में कोई अन्य बदलाव किए बिना फाइबर का 14 ग्राम प्रति दिन सेवन करना कैलोरी में 10% की कमी और 4.2 पाउंड या 1.9 किलोग्राम तक वजन

घटाने में मदद कर सकता है। फाइबर के लिए आप फल, सब्जियां, फलियां, नट्स, बीज, और साबुत अनाज का सेवन करें जो कि फाइबर के बेहतरीन स्रोत हैं जिनका आनंद संतुलित आहार के हिस्से के रूप में लिया जा सकता है।

**हल्दी ब्रेकफास्ट खाएं**  
सुबह के नाश्ते में पौष्टिक भोजन का आनंद लेना आपको अपने अगले भोजन तक पूर्ण महसूस करवा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि नियमित रूप से खाने के पैटर्न को बनाये रखना वजन बढ़ने के खतरों को कम कर सकता है। इसके अलावा महिलाएं अपने वजन को कम करने के लिए अपने भोजन से चीनी की मात्रा को कम करें। वजन बढ़ाने, मधुमेह और हृदय रोग जैसे गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों में चीनी का प्रमुख योगदान होता है। अधिक चीनी के साथ खाद्य पदार्थ उच्च कैलोरी से भरे होते हैं, लेकिन इसमें विटामिन, खनिज, फाइबर और प्रोटीन की कमी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इस कारण से वजन घटाने के लिए सोडा, कैन्डी, फलों का रस और मिठाई जैसे शर्करा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना सबसे अच्छा है।



यदि आप भी घरेलू फेस पैक की तलाश में हैं तो ये आयुर्वेदिक फेस पैक आपके काम के हो सकते हैं। आजमाकर देख लीजिए...

**शहद और नींबू सामान्य व तैलीय त्वचा के लिए क्या चाहिए—** शहद- 1 बड़ा चम्मच, नींबू का रस- 3-4 बूंदें।  
**कैसे बनाएं—** शहद में 3-4 बूंदें नींबू के रस की मिलाकर पूरे चेहरे पर लगाएं। ध्यान रहे कि आंखों के आसपास के हिस्से पर न लगाएं। करीब 20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस पैक को हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं।



**नीम-तुलसी-हल्दी हर प्रकार की त्वचा के लिए क्या चाहिए—** तुलसी की पत्तियां- 4, नीम की पत्तियां- 3-4, हल्दी- 1 छोटा चम्मच और दही- 1 छोटा चम्मच।  
**कैसे बनाएं—** तुलसी और नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लें। इसमें

# गर्मियों में त्वचा झुलस जाती है, त्वचा में ठंडक बनाए रखने के लिए घरेलू फेसपैक लगाएं

चुटकीभर हल्दी और एक चम्मच दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं और सुखने पर धो लें। इस पैक को एक दिन छोड़कर लगा सकते हैं।  
**चावल और चंदन सामान्य व तैलीय त्वचा के लिए क्या चाहिए—** चावल का आटा- 1 बड़ा चम्मच, चंदन का तेल- 2-3 बूंदें या चंदन पाउडर- आधा छोटा चम्मच, गुलाबजल- 1 बड़ा चम्मच।



**कैसे बनाएं—** सभी सामग्रियों को एक बोल में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पैक को चेहरे-गर्दन पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। फिर चेहरे को धोकर मॉइश्चराइज कर लें।  
**दूध-हल्दी-बेसन हर प्रकार की त्वचा के लिए क्या चाहिए—** 1 बड़ा चम्मच बेसन, 2 बड़े चम्मच दूध, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर।  
**कैसे बनाएं—** सभी सामग्रियों को बोल में मिलाकर पैक बना लें। इसे चेहरे पर लगाएं। और 5-10 मिनट तक चेहरे पर ऊपर की ओर मसाज करें। जब पैक सुखने लगे तब चेहरे को धो लें। इसे हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं।

# अपना कोलेस्ट्रॉल घटाएं और खुद को हार्ट अटैक से बचाएं


दिल के रोगों में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एक प्रमुख खतरा माना जाता है। मरीज के रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल जितना ज्यादा होगा, रोग बढ़ने व हार्ट अटैक का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। रक्त में जब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, यह धमनियों में जमा होने लगता है। आगे चलकर धमनियां संख्य होकर सिकुड़ जाती हैं और दिल की ओर रक्त का बहाव धीमा या बंद हो जाता है। रक्त दिल के लिए ऑक्सीजन लेकर जाता है और अगर दिल को आवश्यक रक्त और ऑक्सीजन न मिले तो आपके सोने में दर्द हो सकता है। अगर दिल के एक हिस्से को रक्त मिलना बिल्कुल बंद हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है।



इस बारे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के मानद महासचिव डॉ. के.के. अग्रवाल ने बताया कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कोई लक्षण नहीं होता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि यह बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में तेजी से बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को देखते हुए जीवनशैली में बदलाव जरूरी हो गया है। सक्रिय और सेहतमंद जीवन अपना कर, स्वस्थ आहार लेकर, सिगरेट और शराब से दूर रहकर और तनाव से मुक्त होकर जीवनशैली को रोग टाले जा सकते हैं।

**इन बातों का रखें ध्यान...**  
-अनसेचुरेटेड फैट खाएं और सेचुरेटेड और ट्रांस फैट से बचें।  
-वेजीटेबल ऑयल दिल के लिए अच्छे हैं, उसी में बना व्यंजन खाएं।  
-मछली, मूंगफली, बीजों और कुछ सब्जियों के तेल में सेहतमंद फैट होती है, इसलिए ये ले सकते हैं।  
-सेचुरेटेड फैट वाले पकवान कम खाएं और ट्रांस फैट से भी दूर रहें।

-ओटमील और फलों में उपलब्ध सोलेबल फाइबर ज्यादा लें। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।  
-प्लांट स्टेरोल और स्टानोल्स को आहार में शामिल करें, क्योंकि इन प्राकृतिक पौधों की संरचना कोलेस्ट्रॉल जैसी ही होती है।  
वैसे खानपान पर नियंत्रण कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सरल और कारगर तरीका है, लेकिन हर व्यक्ति पर इसका अलग-अलग असर होता है।





## सार समाचार

## जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर ने एस्ट्राजेनेका का टीका लगाया

बर्लिन। जर्मनी के राष्ट्रपति ने एस्ट्राजेनेका का टीका लगाया है। देश में 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए इसके प्रयोग पर रोक लगाने के बाद यह टीके में विश्वास जताने का प्रतीक है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर (65) ने बुधवार को बर्लिन के एक अस्पताल में टीका लगाया। जर्मनी की स्वतंत्र टीका समिति ने मंगलवार को कहा कि एस्ट्राजेनेका टीके को 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नियमित रूप से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण के कुछ दिनों बाद असामान्य रूप से रक्त का थक्का जमने के कई मामले सामने आए। जर्मनी की सरकार ने अनुशंसाओं का पालन किया और कहा कि टीका 60 वर्ष एवं अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता के साथ लगाया जाएगा। इसके बाद बर्लिन सहित कुछ क्षेत्रों में 60 से 70 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। चांसलर एंगेला मर्केल (66) ने इस हफ्ते कहा कि वह एस्ट्राजेनेका टीका लेने के लिए तैयार हैं।

## पाकिस्तान में कार-ट्रक के बीच टक्कर में एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को सड़क दुर्घटना में तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बुरेवाला से लाहौर लौट रही कार की टक्कर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से हो गई। यह घटना वाहन के तेज रफ्तार की वजह से बुरेवाला के लुडान रोड पर हुई। यह घटना लाहौर से 140 किलोमीटर की दूरी पर हुई। उन्होंने बताया कि वाहन की गति तेज होने से चालक उसपर नियंत्रण खो बैठा और वह सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। अधिकारी ने बताया कि टक्कर इतनी खतरनाक थी कि सभी आठ यात्रियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों में तीन बच्चे और कई महिलाएं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार ने लोगों की मौत पर दुःख प्रकट किया है।

## म्यांमार: सैन्य सरकार के विरोधियों ने 2008 के संविधान को किया अमान्य घोषित, बढ़ा विवाद

यांगून म्यांमार में सैन्य सरकार के विरोधियों ने देश के 2008 के संविधान को अमान्य घोषित किया और बुधवार देर रात को इसके स्थान पर एक अंतरिम संविधान पेश किया, जो सत्ताकण्ड जुटा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। हालांकि यह कदम व्यावहारिक नहीं, बल्कि सांकेतिक है। सेना के तख्तापलट के बाद भूमिगत हुए निर्वाचित सांसदों द्वारा स्थापित स्वयंभू वैकल्पिक सरकार कमेटी रिप्रेजेंटिंग थिंकींगसु ह्ताव (सीआरपीएच) ने सोशल मीडिया पर इन कदमों की घोषणा की। सैन्य शासन के तहत 2008 में लागू संविधान में यह व्यवस्था है कि सत्ता में सेना का प्रभुत्व बना रहे जैसे कि संसद में एक तिहाई सीट सेना के लिए आरक्षित करना और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। एक फरवरी को निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता हथियाने वाले जुटा ने संविधान में आपातकाल के प्रावधानों का हवाला देते हुए ही तख्तापलट किया था। सीआरपीएच ने एक अंतरिम संविधान पेश किया। इसका मकसद म्यांमार में सैन्य तानाशाही के लंबे इतिहास को खत्म करने के साथ ही अपने क्षेत्र में वृहद स्वायत्तता के लिए असंख्य जातीय अल्पसंख्यक समूहों की दीर्घकालीन मांगों को पूरा करना है। सीआरपीएच ने उसे म्यांमार की एकमात्र वैध सरकार के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग की है। विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने उसे अभी औपचारिक दर्जा नहीं दिया है लेकिन कुछ इसे सरकार का एक पक्ष मानते हैं जिससे कम से कम चर्चा तो की जानी चाहिए। जुटा ने इसे देशद्रोही घोषित किया है। इस बीच एक ऑनलाइन समाचार पॉटल के अनुसार, तख्तापलट के दौरान हिरासत में लेने के बाद से पहली बार कोई व्यक्ति अंग सान सू ची से बात कर पाया है। सू ची ने अपने एक वकील मिन मिन सो से वीडियो लिंक के जरिए बात की।

## चीन के व्यवहार के कारण भारत-ऑस्ट्रेलिया ने उसके खिलाफ अपनी नीति बनाई, थिंक टैंक का बयान

वाशिंगटन। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को चीन के व्यवहार की वजह से उसके खिलाफ अपनी नीति को धार देनी पड़ी है। इसने कहा कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के गठबंधनों और भागीदारियों को बहाल रखना कम्प्यूनिस्ट देश के खिलाफ अधिक ताकत से प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'सेटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिस्कोरिटी' ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के शुरू होने से पहले ही बीजिंग की बढ़ती आर्थिक शक्ति, सैन्य आधुनिकीकरण और आक्रामक राजनयिक प्रयास अमेरिका के प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए प्रतिकूल साबित रहे थे और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने चीन के खिलाफ प्रभावी टंग से प्रतिस्पर्धा करने के वास्ते अमेरिका के लिए अवसर उत्पन्न किए हैं। इसमें कहा गया है कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के गठबंधनों और भागीदारियों को बहाल रखना कम्प्यूनिस्ट देश के खिलाफ अधिक ताकत से प्रतिस्पर्धा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के व्यवहार की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी उसके खिलाफ अपनी नीति को धार देनी पड़ी है।

## भारत से कपास और चीनी आयात के फैसले पर इमरान सरकार का यू-टर्न, फिर अलापा कश्मीर राग

## इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने बुधवार को आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) के भारत से चीनी और कपास आयात करने के फैसले को खारिज कर दिया, सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि नयी दिल्ली के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के 2019 के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता। यह फैसला पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री हम्मद अजहर द्वारा बुधवार को की गई उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक के बाद भारत से कपास और चीनी के आयात पर लगे करीब दो साल पुराने प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की थी। इस मुद्दे को लेकर दोपहर बाद से ही कयास लग रहे थे लेकिन अधिकारी खामोश थे और अंततः फैसले को लेकर पहली टिप्पणी मानवाधिकार मामलों की मंत्री शीरीन मजारी की तरफ से आई जिन्हें कश्मीर को लेकर उनके कट्टर रुख के लिये जाना जाता है।

प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मजारी ने ट्वीट किया, 'मंत्रिमंडल ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं होगा।' मजारी ने कहा कि 20 मार्च को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने, '(यह) स्पष्ट किया (कि) भारत के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वे पांच अगस्त 2019 को कश्मीर में की गई कार्रवाई को वापस नहीं ले लेते।' बाद में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत से कपास और चीनी के आयात के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा, '-ऐसा पेश किया जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सामान्य हो गए हैं और व्यापार बहाल हो गया है।' इस रुख पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सर्वसम्मत राय है कि जब तक भारत पांच अगस्त 2019 की एकरफा कार्रवाई को वापस नहीं लेता, भारत के साथ संबंध सामान्य होना संभव नहीं है।' मंत्रिमंडल

की बैठक से पहले मजारी ने कहा था कि ईसीसी के सभी फैसलों के लिये मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होती है और सिर्फ तभी उन्हें सरकार द्वारा 'स्वीकृत' के तौर पर देखा जा सकता है।

मजारी ने ट्वीट किया, 'महज रिकॉर्ड के लिये- ईसीसी के सभी फैसलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए होती है और उसके बाद ही उन्हें 'सरकार से स्वीकृत' माना जाता है। इसलिये मंत्रिमंडल की आज की बैठक में भारत के साथ व्यापार समेत ईसीसी के फैसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। मीडिया को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए।' अजहर द्वारा बुधवार को भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के आंशिक रूप से बहाल होने की उम्मीद बढ़ी थी। भारत के पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद से दोनों देशों में व्यापार संबंध ठप हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निरमाता है।



पाकिस्तान ने मई 2020 में कोविड-19 आवश्यक दवाओं के लिये कच्चे माल के महामारी के बीच भारत से जरूरी दवाओं और आयात पर से रोक हटाई थी।

## बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी करंगे भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा

## वाशिंगटन। (एजेंसी)।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए एक से नौ अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और यूएई की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 22-23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाइडेन द्वारा आयोजित 'नेताओं के शिखर सम्मेलन' और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) से पहले कैरी इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इन देशों की यात्रा करेंगे। कैरी ने ट्वीट किया, "जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीरात, भारत और बांग्लादेश में दोस्तों के साथ सार्थक चर्चा को लेकर उत्साहित हूँ।"

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर वार्ता के मकसद से आयोजित होने वाले 'नेताओं के शिखर सम्मेलन' के लिए आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाभ एवं



महत्व को रेखांकित करना है। व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह कहा था, "यह ग्लासगो में इस साल नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी26) के मार्ग में एक मील का पथर साबित होगा।" व्हाइट हाउस के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्या, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत 40 नेताओं को

शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इन नेताओं के अलावा दक्षिण एशिया से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरींग को भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन और सीओपी26 का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के प्रयासों को गति देना है। उसने कहा कि इस सम्मेलन में इन उदाहरणों को भी रेखांकित किया जाएगा कि जलवायु महत्वाकांक्षा से अच्छे बेतन वाली नौकरियां कैसे पैदा होती हैं, नवोन्मेषी तकनीक विकसित करने में कैसे मदद मिलती है और कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ढलने में कैसे सहायता मिलती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के आयोजन से पहले अमेरिका पेरिस समझौते के तहत अपने नए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के रूप में महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा करेगा। इस सम्मेलन में वे 17 देश भाग लेंगे, जो वैश्विक स्तर पर 80 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं और वैश्विक जीडीपी में उनकी 80 प्रतिशत भूमिका है।

## पाकिस्तान : सेना पर हमले की साजिश रचने के आरोप में छह आतंकवादी गिरफ्तार

## लाहौर। (एजेंसी)।

पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने सैन्यकर्मियों पर हमले की साजिश रचने के आरोप में अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के छह कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) के अधिकारियों ने बताया कि चार कथित आतंकवादियों को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया जबकि दो को पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर बुधवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने रावलपिंडी में कार्रवाई की और ग्रेनेड धमाके में शामिल चार कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने पिछले साल रावलपिंडी में ग्रेनेड धमाका किया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 15 अन्य घायल हुए थे। सीटीडी ने कहा, "गिरफ्तार आतंकवादी कानून प्रवर्तन एजेंसी और सैन्य कर्मियों को निशाना बनाने की



योजना बना रहे थे।" सीटीडी के मुताबिक उनके पास से विस्फोटक, डेटोनेटर, मोबाइल फोन और आतंकवाद में इस्तेमाल अन्य सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि पृष्ठछाह के दौरान कथित आतंकवादियों ने बताया कि वे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की विचारधारा से प्रभावित होकर कट्टर हुए थे लेकिन अब अफगानिस्तान में बैठे आका के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आतंकवादी कानून प्रवर्तन एजेंसी को बताया, "इन आतंकवादियों को योजना बना रहे थे।

## मौसम गर्म होने के कारण वायरस को लेकर चिंता बढ़ी, तीसरी लहर से सरकार परेशान

ब्रसेल्स। उत्तर-पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से में बुधवार को मौसम असाामान्य रूप से गर्म रहा, जिसके कारण लोगों ने नतीजों की परवाह किए बिना अपने घरों से बाहर का रुख किया जबकि महाद्वीप के इस भाग में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी बढ़ गयी है। बेल्जियम में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और वर्ष के प्रारंभ में यहां इतना अधिक तापमान कभी नहीं हुआ जबकि इंग्लैंड में मार्च महीने में बुधवार को तापमान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इंग्लैंड में कोविड-19 के नये मामलों में भारी गिरावट होने के बाद पाबंदियों में ढील दी गयी है। बेल्जियम में पारा 24.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके बाद देश में हजारों लोग पार्क एवं समुद्र तटों की ओर निकल गये। अच्छा मौसम के शुरुवार एवं इस्टर सप्ताहांत तक रहने की संभावना है। धूप भरा मौसम बेल्जियम के 1.15 एक करोड़ लोगों के खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि उन्होंने हाल में हाइड कपकपा देने वाली सड़कों को झेला है। हालांकि देश की सरकार को संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर चिंता है। बेल्जियम में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 876,000 से अधिक मामले सामने आये हैं और 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है।

## पाकिस्तान की अदालत ने TikTok पर लगा प्रतिबंध हटाया, अश्लील सामग्री को लेकर लगी थी रोक

पेशावर। पाकिस्तान की एक अदालत ने वीडियो साझा करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्लिकेशन 'टिकटॉक' पर लगा प्रतिबंध बुधवार को हटा दिया और देश के दूरसंचार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस पर "अनैतिक सामग्री" अपलोड नहीं हो। पेशावर उच्च न्यायालय ने कथित "अश्लील सामग्री" को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था और छह महीने में दूसरी बार ऐसा किया गया है। अदालत ने बुधवार को यह प्रतिबंध हटा दिया। पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने अपने आदेश में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को निर्देश दिया कि वह ऐप पर कोई अश्लील सामग्री अपलोड किए जाने को लेकर सचेत रहे। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी और पीटीए प्राधिकारियों को



अगली सुनवाई तक एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रशीद ने सुनवाई के दौरान पीटीए के अधिकारी से पूछा कि प्राधिकरण ने मंच से "अनैतिक सामग्री" को हटाने के लिए क्या कदम उठाया है। पीटीए के महानिदेशक तारिक गादापुर ने अदालत को बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है कि अश्लील सामग्री साझा करने वालों को ब्लॉक किया जाए। इस ऐप को पाकिस्तान में करीब तीन करोड़ 90 लाख बार डाउनलोड किया गया है।

## चीन का बड़ा बयान, कहा- अमेरिका समेत इन देशों में भी हो कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच

## बीजिंग। (एजेंसी)।

चीन ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी जांच अमेरिका समेत अन्य देशों में भी की जानी चाहिए। चीन के वुहान शहर में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (डब्ल्यूआईवी) का दौरा करने के बाद कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने वाले विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट जारी करते हुए वुहान स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टी. ए. गंब्रेयस ने कहा कि इसमें और जांच की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों पर

बहस की गुंजाइश छोड़ दी है। ट्रंप द्वारा चीन का पक्ष लेने का आरोप श्ले चूकें विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने मंगलवार को जिनैवा ने कहा, "हालांकि, टीम का निष्कर्ष है कि लैब से लोक होने की कहानी के सच होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इसकी और जांच करने की जरूरत है, तथा इसके लिये ज्यादा संख्या में विशेषज्ञों को शामिल करने की जरूरत है, जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए मैं तैयार हूँ।" आरोपों का सामना करने के दौरान चीन ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख के साथ सोहार्दपूर्ण संबंध बना लिए थे, ऐसे में इसकी जांच करने की उनकी पेशकश चीन के लिए झटका है।

गौरतलब है कि चीन पर आरोप लगे हैं कि उसने जानलेवा वायरस से जुड़ी जानकारी छुपायी और वुहान में उसे नियंत्रित करने में देरी की। विशेषज्ञों की रिपोर्ट और उसपर डब्ल्यूएचओ प्रमुख की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय की प्रमुख हुआ चुनियिंग ने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि बयान सटीक उद्धृत किया गया है क्योंकि जहां तक मैं देख सकता हूँ, विशेषज्ञों ने कहा कि वे लैब से लोक होने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है।" हुआ ने विशेषज्ञों के दल की टिप्पणी पर जोर दिया कि लैब से लोक होने की बात सच

होने की संभावना बहुत कम है। हुआ ने चीन के पुराने रुख को फिर से दोहराया कि वायरस चीन के बाहर से आया है और मैरीलैंड के फोर्ट डेट्रिक स्थित अमेरिकी वायो लैब पर अणुनी उठायी। चीन पहले भी कह चुका है कि इस वायो लैब की भी विशेषज्ञों को जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "आगर जरूरत है तो हमें अन्य जगहों पर भी अध्ययन करना चाहिए और हम आशा करते हैं कि विशेषज्ञों ने पर अन्य देश भी डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञों की टीम के साथ वैसे ही खुले और पारदर्शी तरीके से सहयोग करेंगे, जैसे चीन ने किया। हमारा मानना है कि यह दुनिया के हित में है।





### लव जिहाद

## गुजरात विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक बहुमत से पारित

**क्रांति समय दैनिक**  
गांधीनगर, गुजरात विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन लव जिहाद के खिलाफ विधेयक सर्व सहमति से पारित हो गया। कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। लेकिन सत्तापक्ष ने बहुमत के दम विधेयक को सदन में पारित करा लिया। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री विजय स्वामी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत भाजपा नेताओं ने खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने गुजरात में हिन्दू बहन-बेटियों के अब सुरक्षित होने का संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है और मैंने जीवन में कुछ किया है, इसका अहसास हो रहा है। कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक

का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन शोख ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि छल कपट से होनेवाले धर्म परिवर्तन को वह भी उचित नहीं मानते। छल कपट से होनेवाली शादियों के मामलों में कड़ी कार्रवाई में विपक्ष साथ है। उन्होंने कहा कि आंतर धर्म में शादियां पहले से होती आई हैं। पिछले 1 साल में गुजरात में 100 से ज्यादा मुस्लिम युवतियों ने हिन्दू धर्म में शादी की है। केवल अपने राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए लव जिहाद की बातें की जा रही हैं। पिछले 14 साल में आज का दिन विधानसभा के लिए शर्मनाक दिन है। इस कानून में लव जिहाद शब्द नहीं है। लव जिहाद के नाम पर जो भी तर्क दिए गए वह उचित नहीं हैं। केवल राजनीति के लिए



दो समुदायों के बीच कटुता बढ़ाने की बातें की गई हैं। धर्म कानून के प्रावधान जानें लव जिहाद विरोधी सकेगा।

• पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी या इससे ऊँची अधिकारी ही जांच कर सकेगा।  
• अपराधी या उसकी मदद करनेवाले के खिलाफ अपराध दर्ज किया जायेगा।  
• कानून के अंतर्गत अपराधी को 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है साथ ही 2 लाख या इससे अधिक का जुर्माना का भी प्रावधान है।  
• अपराधी, नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बारे में किया गया होगा तो आरोपी को 4 वर्ष से कम नहीं परंतु 7 वर्ष तक सजा होगी और उसे 3 लाख रुपये जुर्माना अदा करना होगा।  
• अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से काम करनेवाले आरोपी संस्था के लिये 3 से 10

वर्ष तक सजा साथ ही 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है यदि कोई संगठन राज्य सरकार द्वारा ग्रांट प्राप्त करता होगा तो वह उसका हकदार नहीं होगा।  
• निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की रहेगी।  
• अपराध गैर जमानत पात माना जायेगा।  
• जालसाजी से विवाह कराना या उसमें सहायता करना अपराध होगा।  
• गलत नाम, उपनाम और धार्मिक निशान शादी में उपयोग करना अपराध माना जायेगा।  
• कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर या कोई भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेगा ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा।

### सार-समाचार

#### एसी कंप्रेसर में शोर्ट सर्किट से लगी आग में झुलकर महिला की मौत

राजकोट, शहर के पटेल चौक निवासी एक महिला की आग में जलकर मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब महिला कपड़े सुखाने छत पर गई थी और वहां रखे एसी के कंप्रेसर में शोर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर विभाग की टीम के पहुंचने से पहले महिला की मौत हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक राजकोट के हरिधवा रोड स्थित पटेल चौक निवासी नीता मीठाभाई रामाणी नामक महिला सुबह करीब 9 बजे मकान की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। उस वक्त छत पर रखे एसी के कंप्रेसर में शोर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। कंप्रेसर के निकट खड़ी नीता रामाणी कुछ समझें इससे पहले आग ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। घटना के वक्त पड़ोस की स्कूल में मौजूद एक शिक्षक अग्निशामक यंत्र लेकर महिला की छत पर पहुंच गया और आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि उस पर काबू पाने में शिक्षक को सफलता नहीं मिली। इस बीच खबर लगते ही फायर विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। लेकिन तब तक नीता रामाणी की आग में जलकर मौत हो चुकी थी। भक्तिगर पुलिस ने दुर्घटना मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

#### सौराष्ट्र में गिरनार के बाद अब चोटीला पर्वत पर बनेगा रोपवे

गांधीनगर, सौराष्ट्र में गिरनार शिखर के बाद अब चोटीला में पर्वत पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री विजय स्वामी ने गुजरात विधानसभा में इसकी घोषणा की। चोटीला में रोपवे बनने से चामुंडा माता के दर्शन करने आते श्रद्धालुओं को सीढ़ियों की लंबी चढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी। सुरेन्द्रनगर जिले के चोटीला में पर्वत पर चामुंडा माता का विख्यात मंदिर है। जहां प्रति दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और चामुंडा माता के दर्शन के लिए उन्हें करीबन 1250 फुट की ऊंचाई सीढ़ियां चढ़कर तय करते हैं। गिरनार की भांति चोटीला में रोपवे के बनने से श्रद्धालुओं को सीढ़ियों की चढ़ाई से मुक्ति मिलेगी और समय भी कम लगेगा। मुख्यमंत्री ने गुजरात विधानसभा में बताया कि आज ही इसकी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि फिलहाल राज्य में अंबाजी, पावागढ और गिरनार में रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। अब गुजरात को एक रोपवे की भेंट मिलेगी।

#### कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने पर 10 दिनों का विशेष अवकाश देगी सरकार

अहमदाबाद, मुख्यमंत्री विजय स्वामी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों तथा फिक्स-पे (निश्चित वेतन) एवं अनुबंध आधारित कर्मचारियों के लिए अहम व संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार में सेवारत कर्मचारियों, फिक्स-पे या संविदा पर नियुक्त कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में उन्हें 10 दिनों का विशेष अवकाश (स्पेशल लीव) दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टी जमा नहीं होने पर भी उसे यह विशेष अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 10 दिनों के अवकाश का लाभ फिक्स-पे तथा संविदा पर नियुक्त कर्मियों को वेतन के साथ दिया जाएगा।

## राज्य में कोरोना के टेस्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट 95 लेबोरेटरी कार्यरत : उप मुख्यमंत्री

**क्रांति समय दैनिक**  
गांधीनगर, राज्यभर में कोरोना के टेस्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 95 लेबोरेटरी कार्यरत हैं। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने गुजरात विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि जब राज्य में कोरोना की शुष्कात हुई थी, तब टेस्टिंग के लिए एक भी लेबोरेटरी कार्यरत नहीं थी। उस वक्त पूना की लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे

सरकार के प्रयासों से नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए टेस्टिंग सुविधा के लिए सरकारी और प्राइवेट समेत कुल 95 लेबोरेटरी कार्यरत की गई हैं। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट जारी करने वाली लेबोरेटरी के खिलाफ शिकायत के संदर्भ में नितिन पटेलने बताया कि सूरत को तेजस लेबोरेटरी और हेम ज्योत लेबोरेटरी के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट की शिकायत मिली

अनियमितता सामने नहीं आई। सूरत के सिमरने होस्पिटल ने तेज लेबोरेटरी को 25 रैपिड टेस्ट की किट दी थी, जिसमें 9 टेस्ट किए गए थे और 16 किट का उपयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार हेम ज्योत लेबोरेटरी को 150 किट दी गई थी, जिसमें केवल 3 उपयोग किया गया था और 147 किट बगैर उपयोग के रखी हुई थी। इन दोनों लेबोरेटरी में किए गए सभी टेस्ट की रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। लेबोरेटरी की ओर से जिनके टेस्ट किए गए थे उनके आधार कार्ड की कोपी, शुल्क की रसीद और

रिपोर्टें समिति की सौंपी गई। जिसके आधार पर समिति ने इन दोनों लेबोरेटरी में किसी प्रकार की अनियमितता से इंकार किया है। इसके बावजूद ऐहतियात के तौर पर इन दोनों लेबोरेटरी में टेस्टिंग सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त टेस्ट किया जाता है और अब तक 45 सरकारी अस्पतालों में 1808277 जितने कोरोना टेस्ट निःशुल्क किए गए हैं।

## पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में 4 अप्रैल को किसान सम्मेलन करेंगे राकेश टिकैत

**क्रांति समय दैनिक**  
अहमदाबाद, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ पिछले कई महीनों में से आंदोलनरत किसान नेता राकेश टिकैत 4 अप्रैल से दो दिवसीय गुजरात यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी के गृह राज्य गुजरात में राकेश टिकैत किसान सम्मेलन करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हासमी और किसान नेता सुनिल पलवार परिषद में बताया कि कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की

बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केन्द्र सरकार एक ओर कानून में बदलाव का आश्वासन देती है, परंतु किसानों को साथ रखकर कानून में बदलाव को तैयार नहीं है। किसानों की एक ही मांग है तीनों कृषि कानूनों को फौन रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को राकेश टिकैत गुजरात आएंगे और यहां के किसानों क साथ चर्चा करेंगे। यदि राकेश टिकैत को रोका गया तो देश के किसान सरकार को जवाब देंगे। 4 अप्रैल

को राकेश टिकैत अंबाजी माता के दर्शन कर अपना गुजरात की दो दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। अंबाजी के बाद टिकैत पालनपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और मेहसाणा जिले के उझा में पाटीदारों की कुलदेवी

उमिया माता के दर्शन करेंगे। 4 अप्रैल को गांधीनगर में राति विश्राम करेंगे और 5 अप्रैल को अहमदाबाद के गांधी आश्रम जाएंगे। उसी दिन सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद जाएंगे और वहां सूरत के बारडोली में किसान सम्मेलन करेंगे।

### गुजरात में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआई टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य

**क्रांति समय दैनिक**  
अहमदाबाद, शहर समेत राज्यभर में कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि को देखते हुए अन् राज्यों से गुजरात आनेवाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर प्रति दिन 18 हजार से अधिक लोगों का आवागमन होता है। आज से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रत्येक यात्री का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर यात्री एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकेगा। गुजरात से सटे राज्यों से आनेवाले लोगों की जांच के लिए सीमा पर चेकपोस्ट कार्यरत हैं। चेकपोस्ट पर अन्य राज्य के व्यक्ति का आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर संक्रमित व्यक्ति को गुजरात में प्रवेश नहीं मिलेगा। बता दें कि गुजरात में कोरोना के केस हर दिन नया रिकार्ड बना रहे हैं। कोरोना की दस्तक के बाद पहली बार बुधवार को 2360 रिकार्ड मरीज सामने आए। अहमदाबाद और सूरत 3-3 समेत 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में कोरोना अब तक 4519 लोगों को निगल चुका है।

प्राइवेट बैंक भांधी ➔ सरकारी बैंक भां

Mo-9118221822

## होमलोन 6.85% ना व्याज दरे

### लोन ट्रांसफर + नवी टोपअप वधारे लोन

तमारी क्रेडिटप्राइवेट बैंक तथा सरकारी कंपनी उख्या व्याज दरमां यावती होमलोन ने नीया व्याज दरमांसरकारी बैंक भां ट्रांसफर करो तथा नवी वधारे टोपअप लोन भेगवो.

## "CHALO GHAR BANATE HAI"

Mobile-9118221822

होम लोन, मॉर्गज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन

**क्रांति समय**

### स्पेशल ऑफर

अपने बिजनेस को बढ़ाये हमारे साथ

## ADVERTISEMENT WITH US

सिर्फ 1000/- रु में (1 महीने के लिए)

संपर्क करे

All Kinds of Financials Solution

Home Loan  
Mortgage Loan  
Commercial Loan  
Project Loan  
Personal Loan  
OD  
CC

Mo-9118221822

9118221822

होम लोन  
मॉर्गज लोन  
होमर्सियल लोन  
प्रोजेक्ट लोन  
पर्सनल लोन  
ओ.डी.  
सी.सी.



## सार समाचार

मध्य प्रदेश में अंतरराज्यीय शराब तस्करी बंद रहे जहरीली शराब, 07 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने लिखा शिवराज सरकार को पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले की लाहूर तहसील अंतर्गत मिहोना और रोना थाना अंतर्गत होली के मौके पर 07 लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। प्रदेश तो छोड़ दो अब राज्य से सटे अन्य प्रदेशों के शराब तस्करी अपनी दस्तक मध्य प्रदेश में दे चुके हैं। जिसका ताजा उदाहरण लाहूर क्षेत्र में सात लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत है। यह कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व विधायक डॉ. गोविंद सिंह का, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाहूर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुए 07 लोगों की असमय मौत को लेकर पत्र लिखा है।

एलडीएफ सरकार ने अयप्पा श्रद्धालुओं की आस्था को कुचलने का प्रयास किया: नड्डा

करुणागपल्ली (केरल)। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबरीमला मंदिर मुद्दे को लेकर पिनाराय विजयन नीत केरल सरकार पर बुरास्पतिवार को निशाना साधा और आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार ने लोगों की आस्था को कुचलने का प्रयास किया जबकि विपक्षी यूडीएफ इस पर मूक दर्शक बना रहा। कोल्लम जिले के करुणागपल्ली में रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने लोगों की आस्था को कुचलने का प्रयास किया गया और अयप्पा श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि सबरीमला मंदिर की परंपरा को बचाने का प्रयास कर रहे लोगों के खिलाफ मामले दब किए गए। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ पूरे मामले पर मूक दर्शक बना रहा और इस मुद्दे पर केवल बयानबाजी की।

सांप्रदायिक बैग पर धर्मनिरपेक्षता का टैग लगाकर घूम रहे हैं भाजपा के प्रतिद्वंद्वी दल: नकवी

पिरावम/एडुमानूर (केरल)। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुरास्पतिवार को केरल में भाजपा के लिए सघन प्रचार किया और प्रतिद्वंद्वी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 'मोदी को कोसने वाला ब्रिगेड' 'सांप्रदायिक बैग पर धर्मनिरपेक्षता का टैग' लगाकर नया राजनीतिक प्रयोग कर रहा है। केरल में छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा नीत राजग उम्मीदवारों के समर्थन में पिरावम, एडुमानूर और वाडकोम में विभिन्न जनसभा और रोड शो को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक मिशन है और 'छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए यह वोट हथियाने का हथकण्डा है।'

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जम्मू-कश्मीर में बड़ा मंदिर बनाएगा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में एक मंदिर और इससे जुड़े भवनों के निर्माण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 40 वर्षों के लिए करीब 25 हेक्टेयर भूमि लीज के आधार पर आवंटित करने के एक प्रस्ताव को बुरास्पतिवार को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव को प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी दी जिसकी बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि करीब 25 हेक्टेयर की भूमि पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक परिसर, एक 'वेदायाशाला', एक आध्यात्मिक/योग केंद्र, एक कार्यालय, आवासीय परिसर और पार्किंग क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसमें चिकित्सा एवं शिक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने टीटीडी को सन् 1932 के तहत एक बोर्ड टीटीडी का गठन किया है, जो धर्माध्य संगठन है और यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में गतिविधियों को अजमा देता है। प्रकाश के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में टीटीडी के आने से पर्यटन की क्षमता और खासकर जम्मू में श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन बढ़ेगा, जिस मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।

बाईपास सर्जरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सेहत में हो रहा सुधार

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुरास्पतिवार को कहा कि हृदय की बाईपास सर्जरी के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने चिकित्सकों एवं देखरेख करने वालों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि वह देशभर और विदेशों से नागरिकों एवं नेताओं के संदेशों से अभिभूत हैं जिनमें उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। कोविंद ने कहा, 'इसके होने आप सभी का शब्दों के माध्यम से आभार प्रकट करना कठिन है।' उल्लेखनीय है कि कोविंद (75) की मंगलवार को नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में हृदय की बाईपास सर्जरी हुई थी। राष्ट्रपति भवन के टीवीट वीडियो में कहा गया है, 'बाईपास सर्जरी के बाद मेरी स्थिति में अच्छा सुधार हो रहा है। डॉक्टरों, देखरेख करने वालों के अद्भुत समर्पण के लिये धन्यवाद।' देशभर और विदेशों से नागरिकों एवं नेताओं के संदेशों से अभिभूत हूँ जिन्होंने मेरे जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आप सभी का शब्दों के माध्यम से आभार प्रकट करना कठिन है।'

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक : सुरेश मौया द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी, 149 प्लॉट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत

गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

## महामारी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने गंवाई सबसे ज्यादा नौकरी, यहां जाने लैंगिक भेदभाव में भारत की स्थिति

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 156 देशों में से 140 पायदानों के साथ भारत 28 पायदान खिसक गया है, जो कहता है कि महामारी ने दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी के अंतर को भरने में करीब 135 साल लग सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी को एक पीढ़ी पीछे धकेल दिया है, यहाँ नहीं इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को उठाना पड़ा है। पुरुषों की नौकरियाँ 3.9 फीसदी की दर से गई जबकि महिलाओं के लिए यही दर 5 फीसदी रही है।

बुधवार को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत ने महिला सशक्तिकरण की संख्या में अधिक गिरावट आई है। बता दें कि 2020 की रैंकिंग में देश 153 देशों में से 112 वें स्थान पर था। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में, केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत से नीचे है। भारत के पड़ोसियों में, बांग्लादेश 65 वें, नेपाल 106, पाकिस्तान 153, अफगानिस्तान 156, भूटान 130 और श्रीलंका 116 वें



स्थान पर है।

लैंगिक भेदभाव पर भारत की स्थिति

पता चला है कि कोविड-19 महामारी का उ मिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिन्होंने पुरुषों की तुलना में उच्च दर पर नौकरियाँ खो दी हैं, और स्कूलों के बंद होने पर उन्हें अतिरिक्त चाइल्डकेअर बोझ का अधिक बोझ उठाना पड़ा। डब्ल्यूईएफ ने एक बयान में कहा, 'महिलाओं की एक और पीढ़ी को लैंगिक समानता के लिए इंतजार करना होगा।' जिनैवा-आधारित संगठन की वार्षिक रिपोर्ट चार क्षेत्रों में 156 देशों में लिंगों के बीच असमानता को दर्शाती है- शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण। आपको बता दें कि लैंगिक भेदभाव मामले में 156 देशों की लिस्ट में भारत 140वें स्थान पर है और इसमें भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है।

## बंगाल में सातवें और आठवें चरण के लिए नामांकन बाकी, क्या एक और सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता दीदी?

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। विधानसभा की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जिसमें हाईप्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी शामिल है जहाँ नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उन्हीं के पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी से है। लेकिन ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वार-पलटवार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल के जयनगर में रैली की और टीएमसी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। वहीं ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र जनता का उत्सव है। नंदीग्राम में बीजेपी नहीं जीतेगी, हमें 90 फीसदी वोट मिले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी की रैली पर स्वागत उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों रैली करते हैं। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटों को गांव में आने नहीं

दिया जा रहा है। ऐसा खराब चुनाव हमने नहीं देखा है।

एक और सीट से पर्चा दाखिल करने जा रही ममता?

पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वह हम सभी ने देखा है। यह दिखाता है कि दीदी अपनी हार मान चुकी है। यह दिखाता है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दीदी अभी भी आखिरी चरण के चुनाव के नामांकन बाकी हैं। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है और लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फार्म भरने जा रही हैं। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या यह सच्चाई है?

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सातवें और आठवें चरण के चुनाव के लिए 31 मार्च को आमोदना नामांकन जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई जो सात अप्रैल तक चलेगी।




## संजय राउत का राजनीतिक अनुमान, कहा- 4 राज्यों के चुनावी नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना के नेता संजय राउत ने बुरास्पतिवार को कहा कि चार राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। राउत ने संवाददाताओं से कहा कि असम में भाजपा सत्ता में है लेकिन कांग्रेस उससे कड़ी टक्कर दे रही है। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हारने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन वह एक शेरों की तरह लड़ रही है और 'शकीन एक विजेता के तौर पर उभरेगी।' राज्यसभा में शिवसेना के सांसद ने कहा, 'हम केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक मूड का भी अंदाजा लगा सकते हैं।'

पणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित गैर-भाजपा नेताओं को एक पत्र लिखा था और कहा था कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के कथित हमलों के खिलाफ 'एकजुट होकर और प्रभावशाली ढंग से' संघर्ष करने का समय आ गया है और विपक्षी



नेताओं को देश के लोगों के लिए एक 'विश्वसनीय विकल्प' पेश करने की कोशिश करनी चाहिए। राउत से जब पत्र के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'चार राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। चुनाव के बाद, गठबंधनों पर चर्चा की जाएगी और तब स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।' उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ममता बनर्जी का पत्र मिला है। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 'जारी महाभारत' असल महाभारत से अधिक

लेकिन ममता बनर्जी ही जीतेंगी।' राउत ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर 'हमला' नया नहीं है। उन्होंने कहा, 'जब भी हमला हुआ है, जनता और विपक्षी दल ने इसका मुकाबला किया है। यही लोकतंत्र की ताकत है।' कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद के सवाल पर राउत ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'जो भी कदम उठाए जाएं, वे राज्य और उसके लोगों के हित में होंगे।'

## धान संग्रहण केंद्र में आग से हजारों क्विंटल धान खाक होना राष्ट्रीय सम्पदा की क्षति का अपराध: धरमलाल कौशिक

रावपुर। (एजेंसी)।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुंगेली जिले के गितपुरी धान संग्रहण केंद्र में लगी आग में 25 हजार क्विंटल धान के जल कर खाक हो जाने की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करके सारे तथ्यों का खुलासा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कौशिक ने इस बड़ी घटना को राष्ट्रीय सम्पदा की क्षति का अपराध बताते हुए इसके लिए प्रदेश सरकार की बदनियती, कुर्नितियों को भी जिम्मेदार ठहराया है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार धान खरीदी के बाद संग्रहण केंद्रों से धान के उठाने को कोई समर्थन नहीं देनाती है। यदि धान का उठाने के समय पर कस्टम मिलिंग करा ली जाती तो ऐसी नौबत नहीं आती और प्रदेश राष्ट्रीय सम्पदा की क्षति से

बच जाता। लेकिन प्रदेश सरकार के पास न तो कोई योजना है, न सुविचारित दृष्टिकोण है और न ही नेतृत्व में समय की महत्ता की समझ है। कौशिक ने कहा कि जले हुए धान में पुरानी खरीद का धान होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार किसानों और खेती तथा कृषि को लेकर सियासी नोटकियाँ तो खूब कर रही है लेकिन जब किसानों के हित और खेती व खेती की पैदावार की रक्षा का मसला आता है तो वह पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो रही है। कौशिक ने कहा कि जो सरकार पिछले वर्ष के खरीदे गए धान का संग्रहण केंद्रों से उठाने नहीं करा पाई, कस्टम मिलिंग नहीं करा पाई, वह सरकार बाद में केंद्र सरकार पर मिथ्या दोषारोप करके अनर्गल प्रलाप करती फिरती है, यही इस सरकार के दो साल के कार्यकाल का काला सच है।

कौशिक ने कहा कि संग्रहण केंद्रों के अलावा प्रदेश सरकार इस खरीद सत्र में खरीदे गए धान का अभी तक खरीदी केंद्रों से उठाने

नहीं करा पाई है जिसके कारण खरीदी केंद्रों में धान खुले में पड़ा है और बारिश में भौगकर सड़ रहा है। प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय सम्पदा को इस बर्बादी का कोई रंज ही नहीं है। कौशिक ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार समय पर पिछले वर्ष कस्टम मिलिंग का काम करा लेती तो संग्रहण केंद्रों में जगह बनती और स्थानाभाव के चलते खरीदी का काम प्रभावित भी नहीं होता। लेकिन प्रदेश सरकार बहानेबाजी करके अपने निकम्मेपन पर पर्दा डालने का काम करती रही है। कौशिक ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन काल में शराब की कोचियांगिरी करती प्रदेश सरकार चाहती तो मई-जून 2020 में धान की कस्टम मिलिंग करा सकती थी, लेकिन कमीशनखोरी में पशगूल प्रथासिद्धि सरकार ने वह काम नहीं किया और उसका खामियाजा हाल के बीते खरीद सत्र में किसानों को भोगना पड़ा और अब धान के सड़ने और जलने से हो रही क्षति के तौर पर प्रदेश को भोगना पड़ रहा है।

## भाजपा नेता के घर पर लश्कर के चार आतंकवादियों ने हमला किया, दो की पहचान हुई: आईजी कश्मीर



श्रीनगर। (एजेंसी)।

कश्मीर के नौगाम क्षेत्र में बुरास्पतिवार को भाजपा नेता के घर पर लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें उनके सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने बताया कि चार आतंकवादियों में से दो की पहचान कर ली गई है और दोनों श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमलावरों को जल्द ही मार गिराएंगे। कुमार ने बताया कि चार में से एक आतंकवादी बुर्का पहनकर आया था और भाजपा नेता अनवर अहमद के घर का मुख्य दरवाजा खुलवाने के लिए उसने गार्ड से महिला की आवाज में बात की। पुलिस नियंत्रण कक्ष में शहीद पुलिस कर्मी रमोज रजा

को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम से इतर आईजीपी संवाददाताओं को बताया, 'मुख्य दरवाजे पर एक संतरी था जबकि दो पुलिस कर्मी गार्ड रूम में थे सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है कि बुक पहनकर आए एक आतंकवादी मुख्य दरवाजा खटखटाया और महिला की आवाज में दरवाजा खोलने को कहा।' कुमार ने कहा कि संतरी ने जब दरवाजा खोला तो दो अन्य आतंकवादियों ने अंधाधुंध उसपर गोलीबारी शुरू कर दी जबकि चौथा उसकी राइफल के साथ चंप हो गया। उन्होंने बताया

'आतंकवादी आए और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें जवान की मौत हो गई।' आईजीपी ने बताया कि चार में से दो आतंकवादियों की पहचान हो गई है उन्होंने कहा, 'शुरुआत में हमें लगा कि बुर्का पहन चुका महिला है लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज क करीब से विश्लेषण करने से पता चला कि वह भी पुरुष है न कि महिला। चार आतंकवादियों में से दो की पहचान कर ली गई है और वे श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं।' उन्होंने बताया, 'वे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। उन्में से एक शाहिद खुशींद डार है जो चनापुरा का रहने वाल है। दूसरे आतंकवादी का नाम जवेद शफी डार है। दोन पिछले साल चार अन्य के साथ लश्कर में शामिल हू थे।' आईजीपी ने कहा, 'पुख्ता खुफिया सूचना मिलते ही हम उन्हें मार गिराएंगे।'

## जनात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव चरित्र, चाल और क्षमता के आधार पर चुने: उपराष्ट्रपति



हैदराबाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुरास्पतिवार को कहा कि लोगों को अपना प्रतिनिधि '4सी- केरक्टर (चरित्र), कडक्ट (आचरण), कैलिबर (योग्यता) और कर्षीसिटी (क्षमता) के आधार पर चुनना चाहिए और अन्य किसी पहलू पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से चरित्र, आचरण, योग्यता और क्षमता का स्थान अन्य 4सी - (कास्ट)जाति, (कम्युनिटी)समुदाय, (कैश) नगद और क्रिमनेलिटि (अपराधिता) ने ले लिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'नागरिक केंद्रित शासन, शासन केंद्रित मतदान से ही आ सकता है।' नायडू ने यह बात 'सुपरीपालना' नामक किताब के लोकार्पण लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। यह किताब तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव एसके जोशी द्वारा अंग्रेजी में लिखी किताब 'इको टी कॉलिंग - टुवर्ड्स पीपुल सेंट्रिक गवर्नेंस' का तेलुगु संस्करण है। उन्होंने कहा कि अच्छे शासन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति और प्रभावी तरीके से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। चुनो हुई सरकार को 'जनविश्वास का धारक' करार देते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें सलाह दी कि वे जिम्मेदारी से कार्य करें और लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा करें।

प्लॉट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत